SE/104/Vol-VII/

Sub: <u>Chairman Speech at 31st AGM held on 27.08.2019.</u>

Please find enclosed the copies of the Chairman Speech at 31st Annual General Meeting of CONCOR, published in the newspapers on 28.08.2019 in 'Times of India, Economic Times & Business Standard', in English language and in 'Navbharat Times, Economic Times, Business Standard' in Hindi language, in all India edition.

This is for your information and record please.



Inte

CHAIRMAN'S SPEECH AT 31st AGM

Dear Share Owners, Ladies and Gentlemen!

tod affaret

Good services: The set of hangement, I have great pressure in existence give at to the 31st Annual General Versiting of pure Consent, I have been the provided to 600,000 the accurate there are the term of the company that the provided to the set of the set of the term of the set of the management of the set of the set of the set of the term set of the set of the management of the set of the se

Annual Report Imusing Direction Report, Frienzes Statiments Auditors Report, contented of CABG last offen risk-andress particing to the functional year 2016-18 and the ASM notice have been calculated in permittenties and end up commander. Location of the site of Level 2016 is statistical termit functional period. The content of the Company during the year 2016-19 web-wise economic service and operations and many according during the year 2016-19 web-wise economic service and operations and many according during the year 2016-19 web-wise economic service and operations and many according during the year 2016-19 web-wise economic service and operations and many according during the year 2016-19 web-wise economic service and operations and many according during the year 2016-19 web-wise economic service and operations and an according during the year 2016-19 web-wise economic service and operations.

FOONDIE SCENARD

ECOURING SCIENCES. As per sport of company is forming the up of Statistic program 2018, schemister and the sport of company is an experiment of the state advectory are experiment to statust advector to sport on the State encourse program is the sport of the state advectory and the sport of the sport of the state of the state state of the sport of the state advectory sport or the state and the sport of the state of the state state of the sport of the state means that the sport of the state and the state of the sport of the state advectory advectory sport or the state as a state is sport of the state of the sport of the state advectory advectory sport or the state as a state is sport of the state of the sport of the sport advectory advector

BUT demons is success in many successful quoti worki global and EDM hade of the oursing it will get another wait of the growth rate of global end economy, the geopolistical concellations and intervention of the intervence allowing equity accounts working for the depolicity global that and moments that is thereas have not an extering glob in revenues working the depolicity global that and moments that is the annuse business as device revenues the depolicity of the depolicity of the provide that authority in the annuse business and extering global moments and the depolicity of provide the set of the annuse business and an externation of the provide and and an externation of the transmission of the set of the externation of the company has reference on the externation of the company has reference on the externation of the provide and depolated them.

scalarson interfacements lines mark 2014; from Pablesia typicend a gravity of 3.11%, in organizing leading of airpo. Non-1016 of million torons in 2214 Also 1222 of million torons in 2014 8 to 3.31 million torons in the product of the air and the scalar of the air and the scalar gravity explained a gravity of acceleration T216 Also interface of the 3.54 million torons in a 2014 Bit of the million T216 of 2.54 million torons in a 2014 Bit of the scalar gravity and the scalar gravity explained a gravity and a scalar gravity and the scalar gravity and the scalar gravity explained a gravity and a scalar gravity and the scalar gravity and the scalar gravity explained a gravity and the scalar gravity and the scalar gravity and the scalar gravity and the scalar gravity explained a gravity and the scalar gravity

In this work work work work and the start of the start of the the start of the star

PERFORMANCE HIGHLIGHTS:

Supported by the economic activities in the country and through focused approach and regist initiative, our Concurs has solvened and anoun preformance during 2014-19, in which a guard manual tame and move on the guard origin mustanized groups. Certain information about the business volumes, financial performance, CAPEX dividend, etc., which i would like to share, are so follow:

ets volumes, harnover & profitability:

Bativities volumes, Lanvour & perificiality: Lin Related to sub most Jun 20 consist, method at line high performance on the parameters of TEX handid, prost harrow and out profit. It has handed 2.83 million TEXIs and transported 4.230 million thread of conjugations by an in 2016/15, as notable of 6.82 and 8.83 weighting subjectively and the protocial year. Texer was 6.11% and 1.9238; graves in the physical roumes of non-DEXI and minimize integrent of constrainty in 2018 parts in the physical roumes of non-DEXI and minimize integrent monochemy. The graves harmon increased by 1.11% is the 3.2156 cores and be well profit for the year was 6.3.215 cores, showing a gravet of 16.375 core protos year.

Capital Expenditure: The statute bursters statute in the large term for the logitic reduct is initial for which your Company is well parent as det converted. During the jait an anomal of anomal III. 38 anomal was seen barred to another converted and another the large term of the large term in the large design of MLE-tak strange locations, procurs meet of stopparty, expension, conserves and other handing explored as the Contrary is operating through as Silver measures and reach another peripersar-with the large to insch. 100 in reach for yours. The large measures and the barries and applicable to part of the large term of the large term of the large term of the strange locations. The large term of the large term of the large term of the strange locations. The large term of the large term of the large term of the strange locations. The large term of the large term of the large locations is the large term of the large locations. The large term of the large locations is a Declare if regions and the large locations of the large locations and the large locations in the large locations. The strange location of the large locations and the large locations of large locations in the strange locations of the large locations of the large locations of large locations in the strange locations of the large locations of large locations of large locations of large locations in the strange locations of large locatio

Net worth and Manat Capitalization: The Net worth of the Company consect from Res 3214 sprine as on 31.03.2018 is Res 10.306 sprine and 31.03.2017 in the marker capacitation of pars Company Net Internet is Res 32.066 sprine as on 31.03.2019 from Res 30.345 sprine as on 31.03.2018.

Divisional Stack Spirit & Borocci professionals, hinch requirements for Acres and DIVAM guidelines for Resping in even for formal professionals, hinch requirements for Acres and DIVAM guidelines for 2015 his to the same of Division of Synce Company has recommended a final dust, finit part division of using the same of ReS in per data. In terms of Annotor of ours, finit part division of using the RES 2015 has a compand to final Statement Area dusted with the his para 2015 his to the RES 2015 has a compand to final Statement RY 2015 his an excession of 2556 has or privice to any year. The total buildent particulation of name statements and and the same statement and the same statement and the same statement 2556 has and priviles the RES 2015 has a transmit the particulation of the same statement 2556 has an envirous system. The dust is an environ term of the same statement and a statement of the same Statement and the same statement and a statement of the same Statement statement by the Company statement terms of the same statement statement by the Company statement terms of the same statement statement by the Company statement terms of the same statement statement by the Company statement terms of the same statement statement by the Company statement terms of the same statement statement by the company statement terms of the same statement statement by the company statement terms of the same statement statement by the company statement terms of the same statement statement by the company statement terms of the same statement statement by the company statement terms of the same statement statement by the company statement terms of the same statement statement by the company statement terms of the same statement statement by the company statement terms of the same statement statement by the company statement terms of the same statement statement by the company statement terms of the same statement statement terms of the same statement terms of the same statement statement terms of the s

STRATEGIES AND INTIATIVES:

structures a wind instantiation for company body is a material label end is statistically placed as an instation of excellence and emission and field insultimation which a best the yang. This transformed hard be entropy to body of the works in advise dispersion of lowing the social point encoders statistically while CORION to their which encoders of lowing the social of encoders the statistical control advised to the statistical point of the statistical statistical advised and advised to the statistical point of the statistical of advised by advised advised terminals. Tools, providing impacts advised advised advised advised the statistical termines and annual to contemp reaching update.

prevision at almost all container holding globs. All the year will all holding globs. 287.BSI had 16 gening carent. Will be hybrid previous traceglobs (be county), agent beef of milling about countings, agentable container handling sequences. By the county align the distances and the second terms blobs of authors relative, afficient and million second recording from the output second provided the thirds the last are alivaring on things countered, build be all RCIDs, our industance is to many many stars in considered and an support and second second PCIDs are industance in the many stars in considered and an support and a second second second PCID be industant in the many stars in considered and an support and all second second and provide the thirds of the second provide the thirds of the second sec

Further, your Company has manifold strategies to achieve its future goals successfully, which inter-alla include:

reform the Company is well postcored to reap the burefits from the opportunities among town whose the Company is well postcored to reap the burefits from the opportunities among true build Colourneed Includents, CST implementation, entering into new area of businesses, proposed mencement of DFC, etc.

With our ethos of "Customer Value Cruston", well planned strategies and initiatives, available resources, in-house dedicated professional team and your support, we will be able to achieve the goal ent growth

SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ALLIANCES

SUBBOARDES, ACIEV TURTURES AND ALLANCES: The July Hearts (July July and subdistant sub hearts top in its any with the leading players in the Induity and are contributing density and induces; breath Subarriss grant of your of your of any table to heart compares, which are are to subdistance spite whereas song bacteriases in the field of add data, air carep, for constant, container heart system of your of your and to the constantly, sharing an infrastructure, manifer Namerial Logistics Table, (MCP) and having in them are player distincting ducers. The the N/ 2 Compares analysis (SCI CORCION Into Compary Lid. (SCICI) and Purgles Logistics Interface standy stands, COR (SCI CORCION Into Company Lid. (SCICI) and Purgles Logistics Interface stands, and and on an advardence. The North Compares analysis (SCI CORCION Into Company Lid. (SCICI) and Purgles Logistics and player distribution; ducers, and and analysis (SCI Corcio). Interface stands, and and an advardence in the spote of the spitelist relations what do spitelist framework and the spitelist and the pitelist has the grain and advardence of the stands and the spitelist framework.

The Company all present has two wholly owned subsidiaries namely. Fresh & Healthy Enterprises Ltd (PHEL) and CONCOR Ar Ltd (CAL).

(PRE) and CONCORAF Lts (CAL) In the part, PRE) do do do well however, with the changed business gravities on implementation of CSI and actioned stronge requirements, and/or basiness gravities on implementation (CSI and actioned stronge requirements, and/or basiness documents) and the facility (PRE), all Part, Songer for developing that an AgeAcquirts Cartier in the shares. Under the hours, COVICED, all Parts, Songer for developing that an AgeAcquirts Cartier in the shares. Under the hours, COVICED, and stronger has the source shares that the hours, 2014 and convelopment in Numer, and the source shares that the source of that, specific works and all onvelopment in Numer, 2019 was confidence of combet of the entering that facts basin bands activities stronger which the importentisepotent are likely to be benefited with enclosed averal sources through which the importentisepotent are likely to be benefited with enclosed averal sources through which the importentisepotent are likely to be benefited with enclosed averal sources and provide which the importentisepotent are likely to be benefited with enclosed averal sources and provide which the importentisepotent are likely to be benefited with enclosed averal sources and provide which the importentisepotent are likely to be benefited with enclosed averal

Registra cons. In order to gain foothoff in the eli comp business. CONCOR AV:LM (CAL) was set up in the year 2012, and A bas cares to cal operations in inflamitional and donesite crucits upder consessional agreements with Mantal International Appoint LM (UAL), to an the years by providing uscending international takes and construit arrange whose at Munchai allow CAL base statisticate calls in each orange locking, a third momental discounticated its consession period with MAL for international approxime receives and and are summarial discounticated its consession period with MAL for international operations in April 2016 and successfully completed its concession period with MUAL for international open intruing to handle domestic air cargo for major six aithnes et Musical algorit.

While the existing JVs are continuing to perform by contributing to the growth of your Company, following new alkances have been made during the year: • Agreement with Krishos Intra structure LLS. (NFIL) whereby CONCOR will operate and manage the performance with Robins (FIC) But performance with Robins (FIC) But performance with Robins (FIC) But performance (FIC) But (FIC) (FIC)

The terminal of the intervence of the provided of the terminal of terminal of terminal devices PAL Ltd. (BATS) for undertaining or out Agreement with Bacaglion Algorith Terminal Services PAL Ltd. (BATS) for undertaining or out Agreement with Services and terminal services and the terminal of terminal of

Memoradum of Understanding with Kanda Memoradomi Cortane Seminal PA Ltd (MC/PL), Americ COVCOP multitative machine et al koons to no the surviver rates between (CCPR) and whole COVPOP multitative machine et al. (COVC) is seen to the - board Monray Corte: (MR), with Cortal Washoung Corporation Ltd (COVC) to seen to the - CPS boardy source of Farman Pa-- Romeant with Understand Farman Pa-- Romeant with Understand Cortection with sources & manage the boarded area at KR2 to Immical McNorage the harding of EVEN hards.
 MCD with USC 2010 (inprote Rates the supports) the board of EVEN hards.
 MCD with USC 2010 (inprote Rates the supports) the board of EVEN hards.

TECHNOLOGY AND STANDARDISATION

TCHINOLOGY AND STANDARDISATION: The digital spositive process the Globa has brough with the memory on government. Thus, Concerns, the models are any wy Datentics and the bio conducted in this new environment. Thus, Concerns, the distribution of the conducted in this new environment. Thus, Concerns, the distribution of the conducted in this new environment of the conducted and the distribution of the conducted in the conducted in the conducted and the distribution of the conducted and the conducted and the conducted and providing spectra states with the conducted and the conducted and providing spectra states with the conducted and the conducted and the conducted and the states of the conducted and the conducted and the conducted and the states of the conducted and the conducted and the conducted and the states of the conducted and the conducted and the conducted and the states of the conducted and the conducted and the states of the conducting and the states of the conducted and the conducted and the states of the states of the conducted and the states of the conducted and the states of the states of the conducted and the states of the conducted and the states of the conducted and the states of the states of the conducted and the states of the states of the conducted and the states of the conducted and the states and the states of the conducted and the states of the conducted and the states of the states of the states of the conductive of the states of the states of the states of the conducted and the states of the conductive of the states of the states of the states of the conducted and the states of the conductive of the states of the states of the states of the states of the conducted and the states of the conductive of the states of the states of the states of the conducted and the states of the conduc

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

International the declared poor of sales if the Company is the most valuable resource that will shape the obtained all our boxiness intellives and ambroug pains. CMICOR has associated and aligned to within the third point of the court the outpains declared and companion buding sends of the adoration of the sharps in the ambrd and carsaing a metch between the Company's them needs and the adoration of include employees.

In access of on-balance project. The Corput process is encouraged employee exponentient, graven and deverspreef of feedback by except the printed encourage annotative data and an exception of employ-time data can an encourage experise to list an entitient in part of gas feedback. Care to take to market with dynamic and cancer experises to list an entitient in part of gas feedback. Care to take to market a side and dynamic work cancels and by provide and draw encourses to be employees feared: Service and the encouraged and supported.

The contribution of every employee is measured and rewarded through result oriented Performance Magagement System (PMS). This argues promotes the philosophy of rewarding and recognizing iteratoracy at all levels and a structured approach is followed for the career development.

CONCOR his maintained industrial peace and harmony as I believes in community of inter-nol is conflicts of namests. It provides an environment of their way communication, participative open publicities to discussion of devia and incriticion of the enzy vess. Due to best employee and career development policies, our attrition rate is merely ansund 2%.

enclaser beneficient points of establishing in encryptions (2). CORNINET CONFINIENCE: You Company is a Nanchik Company and has stabilished a sound famewon of Corposit Commands. Inclusion is tol Copyring Contramente a sound management point and and stable with a common to mailman stabilishooding visuale it a shareholder, encrypties, topolet, autore, theratic community or programmer. The Corporation Commands and the stabilished and the autore and a common to mailman barries stabilishooding visuale it and theration of the stabilished autore, theratic community or programmer. The Corporation Common and autore to excite autore and and the Company models to a strange in the stabilished in devices in a management balanced in strateging in Tamework of Stabilished is, processes in the strateging parameters. Balanced to command and the Common stabilished and and the strateging parameters and the Common and the Common strateging intermediate in the strateging parameters. common cristing in tempora to the pools, passion, instanting and textus in the application. The Governmon is the Company rate to the textus of the formulation, representing and capture vacuum pooles and systems. All shows introletions for the related your Company to ears the tool and gooded of its metatice, bourness partners, employees and the communities in which is operates. For the good will be metatice, bourness partners, employees and the communities in which is operates. For the good will be metatice, bourness partners, employees and the communities in which is operates. For the good will be metatice, bourness partners, employees and the communities of company as Excellence.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

CORPORATE SOCIAL RESPONSEIBLIT: CONCOME Is NUP? committies to the social and economic development of the depined and indepinetion of control of the worth, here the Social y and the country is good for your to them. The Control of the worth, here the Social y and the socially and the your depinetion of control of the worth, here the Social y and the social y and the provement of the social the social is good for your they prove those in other decision one worth with a discrement set of the Social y depinetion of the annual the social worth, is there is discrement set of the Social y best taken in other annual the social worth of the worth watched the social when and the correst shaft were as under: Social when and the discrement is the the worth as worth watched CSR actives in other annual the Social y generation of Discours and Social y the social when and discrement worth and a social - Social define and the social and the social worth social dataset. - Social define and the social social is control to depine in ULB headst. Active Process, - Social define and the social social is control to depine the social worth worth worth worth - Social define and the social and the social social dataset. - Opponent the Machine and the Active Process. The Machine Machine Actives Actives and - Department social and the social and the Social and the Machine Machine - Department social controls that the social social classes are social and all bisholds. Booders - Department social controls that the Social dataset. - Department social and the social data dataset bits process. The Machine Machine Actives Process, - Department social controls that the social dataset bits process and the social and the social social - Department social controls that the social dataset bits the social dataset bits the social dataset. - Department social controls that the social dataset bits the social distances is the social dataset. - Department social controls aread dataset bits the social distances and the social datase

pormie santation, lokes e sz utpur and Vunirusi, Utar Pro-plic lokets was also taken up structure Denni zusinato, USIA Praceloh, Sovepal, Haryana and Chenna, Tamil Nada, Construction r was also taken up al various Ruleay Sutions of Western Rahvay Development of schools at Gautambudh Negar and Shravasti, Utar Pradesh, Purtia, reg, Korala.

Buar and Kamur, Konia. As por pademen issued to JOFE breards CSR expandium in aspectaneal stores, the district of Council and Stammast, Umar Practian, Vasanagatiam, Andres Practian and Astribuc-Tauryages have been storatedial. The located amus of activities for these districts are school and activities and heat the council and activities for these districts are school and activities and the council and activities for these distributions.

escalation and announ calls. Creation of location infrastructure in Nagson, Assam and Visakhapatham, Andres Pradesh as well as contribution in National Spots Development Fund set up by Gevt. of India

Supporting 30 paget advances preparing for hyper studies in Utar Pladeah Ako, ka constitute of primary solved on the start subtem at Dain parenting 250 pathers. Initial separation the solves at 10 pathers but huge and Starbury Utar Pladeah And You Repartment and reform Fing Day Fund to the welfam of any down and ther down Contribution to Armod Room Fing Day Fund to the welfam of any down and ther down

AMARDS AND ACCOLADES

Annual and ALCOLLADES Way events in an accolled here been contered on your Company for its adversarials and performance, served areas are relighent Wash Control Muture Names Names Mendestang' under Index See PQU Assert 2017 by Cast Street Interstruct Journal of Mendestang' under Index See PQU Assert 2017 by Cast Street Interstruct Journal of Assert by Varime General under See Logistics Javet 2019

Logicus Jeve 2019 Dr. 4 Bosteine volt Javeits 2018 runs Transvis 1 yorkima Laweer, a rook Smatt Dards, Charmen, Prine Ministra T. Carcons Ministry O Survis Dards, Charmen, Prine Ministra T. Carcons Ministry O Survis Statistics and Survis Dards and Survis 1 (SUSTIC) 24 MINES by Ministre Otherity at the Smatt Laweer 2018 Statistics and Survis Dards and Survis 1 (SUSTIC) 24 MINES by Ministre Otherity at the Smatt Laweer 2018 To Ministry In Statistics and Survis 2018 Statistics and Survis Dards and Survis 2019 To Burk Dards Survis 2019 Statistics Constants for Self Survis 2019 To Survis 2019 To Survis 2019 - Smatt Laweer 2019 To Survis 2019 To Survis 2019 To Survis 2019 - Smatt Survis Dards for Self Survis 2019 Survis 2019 To Survis 2019 - Smatt Carcina Dards & Suid Operator of the films (France) at Invortem Inde Suturnose Logistics Averds

Lights 2 and: TVIDEC COTLOCK: TVIDEC COTLOCK: The Company belows this social and a site of the Cotlo and and the Cotlo and grant pines have or industry pins. Site 2, cotl, infrastructure grants are bree pinship and configurate the company in social controls that are not pinship and configurate the company in social controls that are not pinship and configurate that and the social should be according to a social pinship and configurate that and the social should be according to a social pinship and the social should be according to a social should be pinship and the social should be according to a social should be possible of the social should be according to a social should be provided to a social should be according to a social should be reference tools have been based to accord to any pinship and the social provide of the according to any social should be that and the social should be provided to according to any social should be that and the social should be provided to according to a social should be that and the social should be possible to a social social should be that and the social should be according to a social be provided to according to ac

This Company has antered this detruction logistic barries to write it that specified and the second state of the second state

Be provide the provides and be marked manage memory with the trades, the services the provides of the final trades in the service of the video Salaway in March 2019 your Company has not only quoty passed the twent in the light numbers to the submers, but in siles ammabilise targets in the range of the service of the trades to the submers, but is siles the services the service of the services of the service of the service of the services and the services of hard to service of the services of the services of the services of the services of hard to service the service of the services of the services of the services of hard to service it is explored to the priority operation where so the index we hard to service it is explored to the priority operation where so the index we hard to service it is explored to the priority operation where so the index we hard to service it is explored to the priority operation where so the index we hard to service it is explored to the priority operation. So the Theorem 2010 Company index we like the index we have a service of the priority operation. Company index we like the service of the priority operation is the service of the priority operation. Company index is company in the service of the priority operation.

Container Train service to Bangladesh has commenced and there are plans to start a new toute to Nepal via Bathatha-Joghan-Binstragar for the transil corpo of Nepal through India's Celeviny ports.

A mobile App for first mile last mile connectivity is being developed which will facilitate efficient terivery of somkors at minimum cost.

Some of the other medium and program str

Some of the stree medium and surgium attitudes a holds the blowing - Enhance solute calce operators for efficient visitator of a string strong is containen on port and terminals at innovated logistica and - Verture mit the read I AUX (Heighteau Capitalia and Kandhatang Zone). - Davies that) the height design strong activate for auto transportation of anits targes, and stars, the forme operatively - Plane for of strong previous in the neighbourities - Plane for of strong previous in the neighbourities - Plane for of strong previous in the neighbourities

ACKNOWLEDGEMENT

Action/CNLEGGELENT: In conclusion i used in its training my sequest gratitude is the Construment Departments reparadly. Ministers of Pathanya, Secure, Commerce and incastry, Franze and all requirous subcrafts and many subcording way. Commany an it is ensering an incastrum substantiation i frame all and another, escorting my contraining mail and ensering an exchangement and machine i frame all contrained support and goodbell that provide an excoungement and machines i frame all and contrained, escort and goodbell that provide an excoungement and machines i frame all and contrained except and goodbell that provide an excoungement and estimation for the machine is all and all bits of that I all as a soluble that provide an excoungement and publication. Analysis and gamman in the similations and prime made, for pathany and unmenting augost and to providing contrainer with an exception of COOCD, the owney that have the success of pairs Company and whose commitment will all a 16 bits practine tends to trans to come Thank you once again, Lades and Gentlemen

27° August, 2019 New Delhi

27º August, 2019 V. Kotyana Rama New Dahl Chaiman and Nanaging Director Note: The does not pupped to be a record of the proceedings of the 31st Annual General Meeting of the Company

CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED

Regd. Office: C-3, CONCOR Bhawan, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi-110076 (CIN: L63011DL1988GO(030915)

Email: investorrelations@concorindia.com, Website: www.concorindia.com Phone: 011-41673093-96, Fax: 011-41673112

Immai P.M. Ltd. (KICTPL).

CHAIRMAN'S SPEECH AT 31st AGM

din.

ear Share Owners, Ladies and Gentlemen!

(Hereow) (a) where Skard's see numbers (1) Note don't plantation in welcomony poor (a) to the SNA were all hereins of your Company. This book in plantation (2000) for another served shows the Allowing and Company (2000) (20

NOME SCENARO

BOOKGINE BODARING: All part and a distribution is functioned and an analysis of the barry part of the whereas whereas and a distribution is the simplifier of the 10 the transmosteries and provide the establish and an any estimation is the barry and the transmosteries and the simplifier of the simplifier of the transmosteries and a second to make any estimation of the transmosteries of the transmosteries and a second to make any estimation of the transmosteries of the transmosteries and a second to make the transmosteries of the transmosteries of the transmosteries and the transmosteries and the transmosteries and transmosteries of the transmosteries of the transmosteries and the transmosteries the relation of the transmosteries of the transmosteries of the transmosteries of the transmosteries of the second provide the transmosteries of the transmosteries of the transmosteries of the transmosteries of the second provide the transmosteries of the second provide the transmosteries of the transmosteries of the transmosteries of the transmosteries of the second provide the transmosteries of the tra

A contrain 1 survey a regardly approved good send global and ENW table of the posity II. a up contrain 1 survey of the growth data of global eccoring, the globalitation uncertainties and surveys of the surveys of the global eccorings in the source globalitations and surveys and the surveys of the surveys of the eccores is the source globalitations and surveys and the surveys of the surveys of the eccores is the source globalitations and surveys and the surveys of the surveys of the eccores is the source globalitations and surveys and surveys of the end of the surveys of the eccore surveys of the eccore strength of the surveys of th

SECTORAL PERFORMANCE

SectroNuL Reproductions that the sector of \$10% in organizing loading of large, from the part 215% , the sector of \$11% of organizing loading of large, from the part 215% and 21% and 21% models are as 215% models are as

We have the matching mechanism space of the subvey in outer terms wind up to \$9.50% from \$353.55 billion is available of the subvey in the subvey in outer terms wind up to \$9.50% from \$353.55 billion is available of the subvey in the subvey in the subvey in the subvey in the subvey is a subvey in the subvey is a wind in the terms of commonless to the subvey interface water parts, also much subvey into available terms of commonless to the subvey module, water parts, also much subvey into available terms of commonless to the subvey into a subvey parts, also much subvey into available terms of commonless to the subvey into a subvey parts, also much subvey into a subvey parts, also much subvey into a subvey parts, also much subvey into a subvey into a

PREFORMANCE HIGHLIGHTS:

blance more provided that is the except and through focussed approach and in your concerns has delivered indextigenthmence sump 2016 19, in which dig parted in a moved on the action of those wire nuclearable greens. Decriman internation about the base instruct pretometismics: CAPEX, surgent, etc., which I would live to share, are as follows:

sets volumes, terrover & profitability:

In both the statement of presenting of the statement of the parameters of the parameters of the parameters and the statement of the parameters of the param

Copital Ext

Capital Expenditure: The Subject Subsection in the lengthem for the lengths sector is integ for which your Congraing is well operation to sent commuter. During the your, all associated a struct BT 350 cores was abore to away and compare you count on the section of informations in the firm of setting your MMPS, and compare you count of the photoparty provides the section of the section build be appreciated and an end of the to section of information of the section of section of the section of th

Net worth and Market Capitalization

Net worth and Warrier Capitalization: The Net worth of the Company increased from Rs 9,574 scripts as on 51 03 2018 to Rs 10,568 as on 31 00 2019. The market capitalization of your Company has increased to Rs 32,006 or on 51 00 2019 from Rs 30 345 strong as on 31 00 2018

1.00

00.00

Dividend, Stock Split & Bonus Issue

2016 18 the Biost of Directors of year or proving has meaning the Marr and DRM proteines. It (11%) are shown having pair wine of the Same meaning of mental of the Same detection is the help wine or many marries that the same meaning of mental of data. The same meaning pair wine of the Same meaning pair of the Same meaning and the Same meaning pair of the Same meaning pair of the Same meaning and the Same meaning pair of the Same meaning pair of the Same meaning and the Same meaning pair of the Same meaning pair of the Same meaning and the Same meaning pair of the Same meaning pair of the Same meaning and the Same meaning pair of the Same meaning pair of the Same mean and some data pair of the Same meaning pair of the Same meaning pair of the same by pair of company since heapting, from shares were insteed in the same of 1.4. STRATE DEE AND SAME pairs Divisional, stock spit a conumbiant Receipt in view the francoup performance 2018-19, the Board of Directines of year (1111); per share having pair value of B division and the highest in any year. The the year 2018-16 will be Rs 522 cronn at 25.82% over previous year. In order to excluse the weath of our shareholders.

कॉनकॉर

CONCOR

加

TECHNOLOGY AND STANDARDISATION

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT:

andum of Understanding, with Kandia International Container Ten CONCOR shall have exclusive rail access to run the container rail

where CDRCOG and have exclusive Rill access to nin the converse exercise remuse XCDR-Rote (1) with Central Womboureg Corporation LSI (CWC) is speciale ther CFS back (is could Peaker Nor - Agreement was NRU, wherean CONCOR with species is manage the bondes area at XRL's terminal and Automation for harding of CRM lands. - MOD with ITE: Jupan for improvement is cod stange againsta. - MOD with ITE: Jupan for improvement is cod stange againsta. - MOD with ITE: Jupan for improvement is cod stange againsta.

TECHNOLOGY AND STANDARDISATION: The digital cubics across the Globel has brangh with it immendulus opportunities and new we need the modifier flaw up becavases and the translot of the the environment. Your Gerginy, motifysise flaw plotsavases and the branchisch globen and prooduces will calculate its higher diversity of the plotsavase and the branchisch globen and prooduces will calculate its higher diversity of the plotsavase and the branchisch globen and prooduces. The share cancel high plot diversity of the plotsavase and the outlying all can postations. The share cancel higher plot plotsavase is the cancel have will give us and edge in our operators is proprising well. They share the plotsavase is the cancel have will give us and edge in our operators is proprising well. They brance have branced the edge of the share the share the share of the share the diversity by plotsavase and the share the share the share the share the share the share the plotsavase is the cancel have the share the share the share the share the share the share the blane of the globel have the share that the share the shar

Consider the dedicated pool of values in the Company as the most valuable resounds that will shape the volume of all one burriers initiatives and untaking goals. CONCOR has adopted and aligned its Hit strategy by laking the account the burness objectives and competence building detected for its burliers. The Hit strategies are small of a casting a motich between the Company's furth needs and the sophistics of includual employees.

are expressed an environment and a second se

cultural events, etc. is also encouraged and supported. The construction of every employee is measured and rewarded through result onested Part Managemeet System (PMS). The system preventies the philosophy of rewarding and no memboracy at all levels and a structured approach is followed for the career development.

CONCOR the analysised industrial peaks and harmony as it believes in community of inter-net in conflicts of interstatic transitions are environment of two way communitation, participation open nardowns for discussion of clease and consistion of the encloyers. Due to best enologies and career development policies, our abristion rate is merely around 2%

(

STRATEGES AND INITIATIVES

STRATE GUES AND INTERVIEWS: Your company today is a manual leader and its strategically placed as an institution of established and retinonen the final of mutimodal logistics in India. Over the years, it has transformed itself to entry to bouquet of services to activity objectives of serving the society and entanong stakeholders¹ value. operations are seen between between a low at has a formulable countrylecte noteen's of 83 wills. Today, your Company has the largest available network of state-of-the-east microsoft als across the country, providing incontabil network and penetration contained with strong are at largest all deviationing Handling penetration.

prevence at Limodal ascensive trading lows All by use and All-base faced annual GRX0 anchares the domistic business. 342 owned in Nex. 57 RS is and its privace prevence and privace prevences must be occurry, large free of as MRA that could be accurated as courses in the direct and include the operations and interme based basis in interfaxe, difficient and include wide added by basis as service an all branch privately the basis and annual and include the additional and annual additional RCTDs, contractions, sections, and annual additional and annual additional and annual RCTDs, contractions, and annual addition and additional and annual additional and annual RCTDs, contractions, and the addition and additional additional and annual additional and annual additional and additional and additional and annual additional and additional additional additional additional and additional and annual additional and additional additional additional additional additional and additional additionadditional additional additionad

Further, your Company has manifold strategies to achieve its future goals suit

In tall include: strong up of MUH2 as strategic bostons along the DFCs and major industrial annexis tensors up of a long transition Technology in the brand structures and the strong structures grant and the strong test and test and with address. Technology test and the strong to grant and test and without and test and the structure and test and without and the structure and test and the structure and the strong to grant and test and the structure and the structures test and the structure and test and the structure and test and the structure and the structure test and the structure and the structure and test and the structure and the structure and the structure and the structure and test and the structure and the s

refore, the Company is well positioned to reap the benefits how the opcordu-tors Government in Casew. GST implementation, entering hits new area of bus unencomment of DFC, etc.

With our othos of Outpomer Value Creation", will planned strategies and Initiatives, resources, through othos derives and your support, we will be able to adver of consistent growth.

SUBSIDIARIES JOINT VENTURES AND ALLIANCES

Subsciences, when reactions and automatics the data futures (a) of subsciences have been endpointed by a subscience of a locating and a contributing creating and inferring lowers basiness growth of your Contrary. These an a cala futures incomprise, which are material basiness growth of your Contrary. These and cala future is a cargo, port operations, container theory taxations, provide this and strain memory, sincing cal instructures, many Multimodal Legissics Aprox (MMCP) and merg of bein are regularly distributing contrarists.

wer mgranny sosteuling owdends. wer W Companys namely SIDCUL CONCOR Hala Company List (SCICL) and Punyb Logicas transmute hanting (ULL) an stoom anderses, in which Salaw on writers of Ultrahand and als majoratory are partners. Going forward, it is repeated that spanfast volumes would be add tom the regions whate Boy are located which will help in increasing our rail share by fing Laffic from mod

Company or present has two wholly owned subsidiaries namely. Fresh & Healtry Enterprises Ltd. EL) and I CONCOR Air Ltd (CAL)

n togan borrowi in the air compo bourness, CONCOR Air LM, [CAL] was settup in tas airwe' out operations in internitivati and domestic orouns under opportunity intella internazional Apport LS, [ANA]. One the start opportunity and international accessity operatives and exercision product VMAL for himmative concession unargit channel domestic as page to major su antines all function among many to maintai domestic as page to major su antines all function among many to maintai domestic as page to major su antines all function among to maintai domestic as page to major su antines all function among many to maintai domestic as page to major su antines all function among to maintai antinessionession and the substantian antinession and the substantian and the substantian among to major substantian antional many many to maintain antinession and the substantian antional antipage to the substantian antipage antipage to antipage an val es ve

the excising JVs are continuing to perform by contributing to the grow ng new altances have been made during the year:

ig new allunces have been made during the year: remera with Krizhou Intestatoure Lid. (NRL) whereby CONCOR will operate and manage the detrate of their CD, Pall content with Bangalote Aropst Temmal Services Pris. Ltd. (BATS) for undertaking ground

00.00

Thank you once again, Ladies and Gentemon

0

V. Kalyana Rama and Managing Director

27° August, 2019 New Dolhi

chairman and Managing Director Note: This does not purport to be a record of the proceedings of the 31st Annual General Weeting of the Company.



Our Ballappe terminal was chosen for Smart DCT Award by Martime Gateway under Smart Logistics Award 2018 Oun & Bradsheet PSU Awards 2018 under Transport & Logissic Services category by Smi Bibek
 Detroy, Charman, Pirme Minister's Economic Advecory Council. Densy Charman Prem Ministri Economic Astropy Council ECO Savanopaya wa contende and 1998/ELOD(ST) 5 Ministro by Manthe Calvery at the Smart Logistic Savand 2018 S WOTCH Oliver-Africa 2018 And Arroy for SSM Source Savani at Neo Deh S and the Industry Awards to EST Mark under the anappyr. Biol Finglish Savati Ravider Ravi Analy Southence Award for Beel Financies in Logistics during 1tim NBUGH ERA Work Savand Ravi S and Naking Councer Avera La Savat Logistics during 11tim NBUGH ERA Work Savati S anal Naking Councer Avera La Savati Logistics Savati at Kokina • Intel Councer Dept. & Rail Operator of mar Yana (Ihalici) at Northem India Misterood Logistics Awards

oning 30 bright students preparing for higher studies in Litter Prodesh. Also, supports Sons of primary school no for slum christen at Derk, tweefising 250 children. Infrastructur in to the schwiss at Gaulem Buch Nagar and Ghazpuz, Litter Prodesh and "Khattwais

spendious of princip updato in the stand whitem at Dark, hwelling 200 shafter support to the schools at Gautem Budh Nagar and Ghazaux. Utter Redekt a Rajasta InternetTring more than 2,000 sudvers. • Centribution to Armed Forces Flag Day Fund for the wetters of war ensens and the

Many awards and acculates have been conferred on your Co performance, some of which are • Highest Waveth Ceasor-Marvet Patures Navistina-Noe-Marufs Awards 2017 by Data Street Investment Journal

5

in Best Phil

FUTURE OUTLOOK: Your Company believe

AWARDS AND ACCOLADES:

NUME SCHOOLS. IN Charges physics that accounts sectionly and increase in EXU Intel will give toold to fits priority pairs, larger worker of indicated pairs, SS2a poirs, infrastrukter growth etc. being school and an experiments of match benefits. Based on the soft to chardow that have the matter the the transmission of the priority of the school and the soft to the school and pairs the school and priority of the school and the soft to action constraints of the school and pairs and the school and the school and the school and the school and pairs and the school and the school and the school and the school and pairs and the school and the school and the school and the school and pairs and the school and the school and the school and the school and pairs and the school and the school and the school and the school and pairs and the school and the school and the school and the school and pairs and the school and the school and the school and the school and pairs and the school and the school and the school and the school and pairs and the school and the school and the school and the school and pairs and the school and the school and the school and the school and pairs and the school and the school and the school and the school and pairs and the school and the school and the school and the school and pairs and the school and pairs and the school and th

During the year, your Combany has started its coarts shoping operations at Wear Coast eture Kanda-Margoon-Coamin-Tudore-Arinds. It will also give immitted connecting them there is one by mit on cards. Smart arrevers, it is claiming to provide all East Coast agroups of Bangded Que coasts draging activities will benefit the table in many write instuding through the accord logistic coast.

regise cores (yog Company Has retered into darbation bigistics business for which it has dentified 20 nodes around inclusion which long duration attragements with buliness partners seeked through ancientg process, will be done under PPP mode. At these destudion logistic corres, the encode to general modem semibulase and the building reanage meeting and distribution of the products, will

Container Train service to Bangladesh has commenced and there are plans to start a new Nesal va Batraha-Joobani Brishagar for the transit camp of Neral through Induits Gateway

A mobile App for first mile last mile connectivity is being developed which will facilitate efficient delivery of services all minimum cost.

bit services an immune total. Some of the other endows and knop-error strategies, induce the following: Entance could instant operations for efficient utilization of an intilling stocks, increase dwell time of configures to and iterative as a instant legislics total. Owney to the size of ILA2 (impacted Logislics and Naturdisching Zone). Owney tody to therefore design being excived for total immodulation of doment, approprint, legislication, stock and the response of an legislication. Plan for director preserve in the neighbouring countries. CONTRACTOR EDGEWENT According topological in the conney my deepert gratitude to the Constrained Department Reporting Metabolics of Railways, Stipping Comments and Thomary, Frience and all impairies pationation having supporting provide Compring mail is introduced. Take marketing to use or taked thatmobiles by pury continued second and general table provide us around general and noticed. Taken all or stortions: storthomary provides that provide us around general and noticed in table and tables and all or efforts. Tables addressed as an accellate and all the storthomary tables apport particulars in the destination and stort and commenting support and tables and tables and tables and a stort and commenting support and tables and tables and tables and particular tables and commenting support and tables and tables and tables and particular tables and commenting support and tables and tables and tables and particular tables and tables and commenting support and tables and tables and tables and particular tables and tables tables and table

CORPORATE GOVERNMACE: Your Domany a a Namiza Company and has established a sound framework of Dorports Generation. It televans that Corporate Governance a slout maintaining valuable intiliationly and tox units a community or prospiration. The Corporatio Governance fram a load upon transparency, kill disclosure, independent monitoring and similar in another toxic and an analysis and another the registration toxic and the Corporatio control is activities in an artificial and insponsible manners branch activities to all. The Company and costs a scholes in an artificial and insponsible manners branch believed in cetaing a transversion of deal policies, protocosts structures and elevan in the organization free Communics on the Contexpires to the structure insplants (in proteining) and updating memos process and spreme. A these Namishiem trans enabled your Company to earn the transpire para 2019. D, DFEbra since in Corporate Governance Domplaness of your Company as Experient. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

CORPORTS SOCIAL RESPONSEILTY: CONCRET is style comments to the social and economic development of the deprived and analoguithed accurs distances to interfere is CRR write pilms at providing support and benefits to party. The Company believes it and attributes to post to the social will defend only be apported and the company CONCRETs social administs in PT 2014-19 continued to focus on development of social activates in other areas like stratistics will development environment sustainability, etc. have also bean taking to a motion of activation and development environment sustainability, etc. have also bean taking to a motioner LATM and eventured during the year lowered surrous CSR activates of the motioner LATM and wind the social activation of CSR activates. Social of an including Latman and activation.

Solida: Solida of the inclusions below men to a sindor: Solida logical and hand pumps inclusion in the local annual of Dracipy and Subaryou, Utile Phodesh, Tammada and hand pumps inclusion in the local or generation and logical in Utile Phodesh, Neuhan Phodesh, Tammada and Keyana Solida and So

Inflastivation Development of schools at Gaucenbook Nager and Straves, Ukar Process, Parria, Bau, and Garrar, Krassing Andrea, Straves, Star Process, Parria, Parria, Constant, Straves, Parria, Vestantianto, Parria, Parria, Parria, Parria, Parria, Parria, Constant, and Starrards, Ukar Franker, Vestantavitom, Andrea Process, and Asabas, Tatorguas Abor Been stor-Henci. The focused areas of activities for these desirets are school evaluation and half arm.

allon and hearn care. Bon of sports infrastructure in Nagoon, Asseni and Visakhapainam, Andrea Pro studion in National Sports Development Fund set up by Gord, of India.

Ċ.

1.0

0000

Brands: Creating Desire 🐻

CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED

Regd. Office: C-3, CONCOR Bhawan, Mathura Road, Opp. Apolio Hospital, New Delhi-110076 (CIN: L63011DL1988CO1030915)

Email: investorrelations@concorndia.com, Website: www.concorindia.com Phone: 011-41873093-95, Fax: 011-41873112

TELAL

CHAIRMAN'S SPEECH AT 31st AGM

- Brid

k

THE ECONOMIC TIMES | NEW DELHI / GURGAON | WEDNESDAY | 28 AUGUST 2019 | WWW, ECONOMICTIMES, COM

100 m Alla.

2

Dear Share Owners, Ladies and Gentlemen!

Good she

Good attentions. De bealt of entre Barcel and management, I have greet pleasure in welcomp you all to the 3 has Annual Germal Meeting of your Company. If have been my privilege to bealt (2000) for annual three years now. After your Company is fulling and their growing of them is it indexet and shours its mo-to address you at na hadron (and, management). It gives no internets some of your in address and have the company's endation. SUCCOSS antimus to subserve the Address prime address.

Amual Report indusing Directors Report, Francial Statimenine, Audion Report, comments of DLAG and other isocametic interlining to the francial and 2015 the and the Abd scale Abort france manualed in permitting the community of the community of the annex of model food regime accust per performance of your Commenty Surray the part of the Strandows environds senses, and opposed accust user and additional senses for an environd.

ECONOMIC SCENARIO

EDMONE SCHWARD: As de teor of interformers. Names in Face group eccentry of the 21 Fs. Schwarz and SCH and any mark in SFs. John previous 21 Fs. (Fs. 1) have eccentry is and 20 million and at the previous in the 35 million previous and the schwarz and the teoretical teor of the schwarz and the schwarz account in the schwarz and the schwarz teoretical and the schwarz account in the schwarz account in the schwarz teoretical and the schwarz account in the schwarz account in the schwarz teoretical account in the schwarz account in the schwarz account in the schwarz account teoretical account in the schwarz account in the schwarz account in the schwarz account teoretical account in the schwarz account in the schwarz account in the schwarz account account in the schwarz account in the schwarz account in the schwarz account account in the schwarz account in the schwarz account in the schwarz account account in the schwarz account in the schwarz account in the schwarz account account in the schwarz account in the schwarz account in the schwarz account account in the schwarz account in the schwarz account in the schwarz account in the previous account in the schwarz account in the schwarz account in the schwarz account in the account in the schwarz account in the schwarz account is the schwarz account in the account in the schwarz account in the schwarz account is the schwarz account in the account in the schwarz account is the schwarz account in the schwarz account in the account in the schwarz account is the schwarz account in the schwarz account in the account in the schwarz account is the schwarz account in the schwarz account in the account in the schwarz account is the schwarz account in the schwarz account in the schwarz account in the account in the schwarz account

The Demany & contrast a matchy determined and on were good were DCM have of the accery, as and an accery were of the good matching of good accerys the good data durations and and entertainties of their terms are using approximate in the work of durating good takes and an accertainties and a shoring gain in motion and to good accers good takes and the short terms are an accertainties and access good takes and the short terms are an accessing and interesting accession accessing to the accessing accession of matching and accessing to the short terms and accessing accessing to access and accessing terms and accessing to the accessing accessing terms in accessing on the accessing terms and accessing the accessing accessing terms are more importantly a committee and accessing team.

SECTORAL PERFORMANCE

In the war 2015-19 million forward regional a growt of 5.01% is organized badly of large, from this similar bornes in 2015 the COLLS million bornes in 2015 the counter in 2015 the COLLS million bornes in 2015 the counter is a similar borne in 2015 the counter in 20

In the last framework was not 16/3 to 15/4 (million TELIA n 2016/16). In the last framework was not 16/3 to 15/4 (million TELIA n 2016/16). In the last framework was not 16/3 for the most of the second sec

PERFORMANCE HIGHLIGHTS.

Desaulton instructions on the monthy and through boarsed approach and rights and by the instruments bandwise it most therefore and the top 2016 11, is when it gameet manual and moved on the same of long arm substanding growth. Certain information south the business is for the same 2016 Colorest Bandwise (and would lead to share, are as boliows:

HER HOUSE LINNING & STOTAGETY.

Bayes yours, turning a portioning: Langingian point on the prior Domain prior to the performance of the parameters of TDV strends grass streams and edges's than randod 23 million TDV and transport 4.033 million these of grass works or sing 2015 bits and random 4.04 we do 35% researched over the present and TDV streams of the prior of the parameters of the the prior domains registration. The grass the transport edges and the RV and and domains registration. The grass there can edge 311 Million Res 12(3) downs and the of politicity of the res to 12(3) to politicity of 1537% over previous year.

Canital Economican

Casils Segretize The place bounds in the long tern for the byte place extra a rotat for which your Company is well years a place strandor. Camp the place is instant of wards PL36 costs was speed to works device strandors, and place strandors and the strandors of the ond starting of MAXPs at place place terms of the place of the strandors of the model of the order of the ond the Costsel is operative and the based weaks common and other handling existing with the strange strandors of the strandors was and the model of the strandors with the strange strandors of the strandors was and the strandors was and with the strandors of the strandors and with a decay costsel (51 in the strandors years) with the strandors of the strandors and with a decay costsel (51 in the strandors and strandors there regimes in the strandors the common strandors was been and and the strandors and the strandors and the strandors and the strandors and strandors (Tables) in the strandors and the strandors and the strandors and the strandors and intervention of was and the common strandors and the strandors and the strandors and intervention of was and the strandors and the strandors and the strandorm and intervention of was and the strandors and the strandors and the strandorm and intervention of was and the strandors and the strandors and the strandors and the strandorm and intervention of was and strandors. The device the strandors and the strandors and the strandorm and intervention of was an extension of the strandors and the strandors and the strandorm and the strandors and strandors and the strandors and the strandors and the strandorm and the strandors and strandors and the strandors and the strandors and the strandorm and the strandors and strandors and the strandors and the strandorm and the strandors and the strandors and the strandors and the strandorm and the strandors and the strandors and the strandors of the strandors of the long the strandors and the strandors and the strandors and the strandors of th

at worth and Markat Canitalization

The Network of the Congany excessed from Rs.8.374 conces as on 31.03.2018 to Rs.10,368 conces as on 31.03.2018. The cantac captalization of your Congany has noneeded to Rs.32.006 conces as on 31.03.2019 from Rs.30.345 conces as on 31.03.2018.

Divisional Stock Spill & Bonus Inton

Dissend, Stock Spill & Blown Inter: Avery in were be facuated rectorization. And it regularments for Altare and DIRMI guidelines for 2016 R. Per Book of Directors of your Company has incommended a field diversed of BLS 30 (17%) or a down Awarg you stude of RS-5 systems. It have not a downed of dough. Boy work control with the downed your stude of RS-5 systems in the stress of extended students of BLS 30 work and the downed of RS-1 and RS-5 systems. It have not a downed of dough. Boy work downed with the downed in the transmitter be protocolour of watter distribution table to a downed of the downed in the transmitter be protocolour of watter downed interview table and the downed of the downed in the transmitter be protocolour of watter downed interview table to a downed to the downed of the system manded the transmitter be protocolour of watter downed interview table and downed to the streng of BLS shath. Shategore with in downed the BLS in the data how to company serve incontext, how a downed watter without of BLS and BLS and BLS and BLS and BLS.

17

STRATEGES AND INITIATIVES

RATE GES AND MILITAINES. or company body is a market leader and is stainegorally placed as an institution of excellence and rence in the fact of instruments logition in India. Over the years, it has transformed load to enlarge logical of services to achieve objectives of serving the society and enhancing stateboldent' value Accessed accesses and the control of a strange and accesses accesses and accesses accesse

Further, your Company has manifold strategies to achieve its future goals successfully,

Interval induce: • Storby up of MiCP-3 at simily/closslows along the DFCs and major inductival areas: • interval us all attenuation Technology in the form of warehousing mazagement, e-commonie, • Warthing transactivative • Warthing transactivative • Storburne optional toppolis periods immuned topkits solutions by using read, nil and coasial • Storburne optional USQ (Integrated Logics and Manufacturing Zowis). Therefore, the Company is writ postered to may the twenths from the optionalities sing from viscan Generation Hussies, GST Implementative, externing in the evaluation and startifiests, proposed commonder of DFC, etc.

With our whole of "Castomer Value Creation", well planned strategies and Initialives, resources, in-house exclusive protestional learn and your support, we will be able to achieve discussionist growth.

SUBSIDIARIES JOINT VENTURES AND ALLIANCES:

SUBSIDUARS, JOINT VENTURES AND ALLANCES: The Qierk Vienne, Viennie And Marken been sind in Tim up with the teacing players in the industry to be combating directly diversity bioretic balances grant of your concerny. There and balance balances are concerned in traditionalis spirit of whereas delty balances in the Said of calls down, ar carpa, port contrators, container Helps subcors, providing that and bat the presentation, strain and instructure, unrunny Mattheada Logistics Panes (MALR-R) and neary of them are regularly distributing diverses.

The Company of present has here wholly owned subsidiaries namely. Fresh & Heality Enterprises Ltd (FHEL) and CONCOR Art to (CAL).

(FHEL) and CONCOR An Let (CAL). In the pres L FREL (do and do and Howard, while the douged builters dynamics on implementation (GTS) and accessed surger acciments are hardward builters dynamics on implementation (GTS) and accessed surger acciments are hardward builters and there prove reprinting of the daily of FREL ARL Somethand by environmentation and the property of the daily of FREL and the set of LTS and the set of the daily of the daily of FREL and ArL 2018 and setup of the daily of FREL and the daily of the daily of FREL and the free reprinting of setup of the daily of FREL and the daily of LTS and the setup of the daily of the daily of the daily of FREL and the free and setup of the daily of FREL and the daily of LTS and the setup of the daily daily of the da

opprint cogni. Social di ne sai cargo businesi, CONCOR AV LM (CAL) was setup in three years of a social di a concisioni in referitabilita (MAL) denestic cinculta under concentral aprenesta esti f tea cancel du aportationi in referitabilita (MAL) den tre years by provideg succendri intervativa a esti functiona di aportati (MAL), den tre years by provideg succendri intervativa a and conceto er ango province all Munita ango (CAL) has estatalend da fini na Forzago province reas succendri young lede cito concensor proto estati (MAL) de intervanta aportationa aportati en trapica a concentra er ango proto estati da fini aportati concensor proto estati da fini ander con proto estati aportati estati concensor estati porta aporta estati da fini a fini aportati estati aportati estati estati aportati estati estativaria basedo concensor proto estati esta Munita aportati estati estati

When the existing JVs are commany to perform by contributing to the growth of your Comp following new alteraces have been made during the year

scenng new situances Flage bein machine and ne ang the jean Agreement we Kathoo (Hardanouth H. (Hill) all samity COMCRR well oscinate and masage the border date of the root CP and the amount of the List (BATS) for understating ground Agreement with Europiane Andreas Barchens Rev. List (BATS) for understating ground Adreament with Europiane Andreas andreas all adreas approxim Indea Agreement with Europiane Rootbarys Rev List (SCRR) for exclusion containersed operations by COMCRR at a barbow.

convolum of Nederslanding. with Kendia Informational Container Terminal Prit Ltd. (NICTPL), ele CONCOL shull have exclusive tail access to run the dostaneer rates between KICTPL and shaked CONCID and have real-time on excess to use a summarized CONCID and the Central WavePeaking Corporation LH. [CVIC] is spende there will be able to the Central WavePeaking Corporation LH. [CVIC] is spende there in CONCID and proves the CONCID and proves the many of the bandward to the Central LH and prove the CONCID and proves the many of the bandward to the Central LH and Central LH and Central LH and Centrals

1

e ar

ECHNOLOGY AND STANDARDISATION

概

las

कॉनकॉर CONCOR

16

FICHMODOT Mus STANDAUGRATION: In might a given zame the Golds has beauting with it is monotons exponentially and exercise the processor is the advancement of the consoluted in this true determines the Consolution recomments but exercises and advancement of the consolution of the type and depends that depend with the consolution of the type of the level depends that depends and the type of the type of the type of the providing structure (section of the type of the type of the type of the providing structure) and the type of the type of the type of the type of the providing structure is structured by the type of the type of the type of the providing structure is structured by the type of the type of the type of type of the type of type of the type of type of the type of the type of the type of type of type of type of type of type of the type of type of type of the type of type of

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT:

Inservir the doctage and processors. Denseler the doctage and processors and arribbe goals. CONCOR has adopted and aligned the the subtance of all our brancess instrume and arribbe goals. CONCOR has adopted and aligned the life shelleng by listing in a about it the burness detectives and completion balling works of burness. The structure of the subtance of the subtance of the subtance of the subtance of the burness. The subtance of the burness of the subtance of the s

re explanation of indicate implement. The Company brains in inducating environment approximately gravity and and development of individual by making their potential, encouraging intervalse laters and fair distribution of invested the work capture a gravity and approximately confidence of the sector. Can is taken in markets take and hyperic work climate and p provide conductive environment to the conjuges bravels by could be a.7. Among the conductive and their family members in sports, cutural environment, etc. It also encouraged and supported.

outual revents, etc. La aixe encouraged and supporter. The comploation of every employee is measured and everated through result oriented Perform Maragement System (PMS). This system spontes the patienceph of revending and recog methodracy at al terrels and a structured approach is followed for the career development. CONCOR has maintained inductival peerse and harmony as 2 believes in community of interest not in conflicts of interests. It provides an environment of two way communitation, participative open patterns for discussion of ideas are of motion of the environment of the temployee in and career divelopment policies, our attition rate is merely around 2%.

CORPORATE GOVERNANCE:

CORPORATE CONFERNANCE: They Concern as a Nutrice Congramy, and has instabilities a sound framework of Corporatio Coversaon. It Nutrices that Corporate Coversaons a sound numericating valuate installongham and what a commentant to mainting structured window the La advantability instagence, support automet, instantic community or projecturities. The Corporate Coversaon has in National space frameworks (Maconality, Maconality, Macon between instances a interesting to construct the power power is provided and the power power is the Company to be an interesting to the power power is the Company to be an interesting to the power p

CORDORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

£.

CORPORTS SOCIAL RESPONSIBILITY: CONCROL Is table, commente to the social and economic development of the deprived and underprivilying database of the social and economic development of the deprived and them. The Charge Defendent and the title CSR policy almost attorneding spectra of benefits of the title concerning and the social and the social of the social and the concerning and the year Company CONCORS social attorned and the title concerning and the social and and provers toos and concerning and the social and the concerning and the year and them not the mass line, sandards, suid development, environment, sustainability, enc. Now also benefit (and an and of the suit) account of the social and under the year to works various CSR advises. Some of the initiative lites were as under a sub-social and the domain control for the and instant of CARLER and Stateour. Little Phonetin.

Setti ga An anyoni of Rai 128 cross was around during the year towards surrous CSR exclusions one of the failures trainers as under
Setti region and analy surgini installel in the num innus of Ghacpur and Statispur. Utar Processin, Sona of Statispurs and Statispurs (Ling Processin, Sona of Statispurs), Setti region and anyong installel in the num innus of Ghacpur and Statispurs). The Processin, Setti region and Statispurs (Ling Processin, Sona Conference and Statispurs), Setti region and Statispurs (Ling Processin, Setti region and Statispurs). The Statisform Statispurs (Ling Processin, Setti region and Statispurs). Setti region and statispurs (Ling Processin, Setti region and Statispurs). Setti region and setting and analysis of the Statisform Statispurs (Ling Processin, Setti region and Statispurs). Setti region and setting and analysis and Andreas Processin, Setting and Analysis (Ling Processin, Setting and Analysis). Setti Region and Statispurs (Ling Processin, Setting and Ling Processin, Setting and Analysis). Setti Region and Statispurs (Ling Processin, Setting and Ling Processin,

1

Supporting 30 bright students pressing for higher student in Utar Pradesh Alixi, operators of primary stored on the stude middlew at Behi, travetting 250 chiefms. In support to the schools at Guidea Buch Nagla and Grazour Utar Pratesh and Rejastana tereffcing none time 200 students. · Contribution to Annext Forces Flag Day Fund for the wetfane of war withows and it will day

Many awards and accolledes have been confirmed on your Company for the performance, some of which are

- Logistics Averd 2018. E Das & Bindysker PGI) Averds 2018 under Tamsport & Logistic Servicen category by Dirit Bork Exetury Chaiman, Prise Ministric Economic Advocy Council 1:105 Samschapers are conferent wird av 2018 USARIE Dirit Michille Galinery al the Samst Logistics Summit 2014. S Strict Chain Logistics Charrol 2018 Averd Charg Ber Shid Stacks Summit at New Defin 5 Star of Dia Industry Awards by UT New Under the Logistic Summit at New Defin 5 Star of Dia Industry Awards by UT New Under the Logistics France Provider Parit 4 Amety Evaluation averts for the Processon in Logistics dong the MILUH FEAK Viend Summit 2019 5 Stars failures Departer Avert of Sam Anales Logistics Charmet at Kohnste 1 Industrie Docts & Rail Operator of Dia Year (Public) at Northerm Inder Millmodel Logistics Avents

Logistics Avents. FUTURE OUTLOOK: TWO Compary biologies that economic recovery and increase in EXIM trade will give tools to its greets flaves. Large number of industrial gives. S222, post, instantinuities prevent etc. Sengi patter trady, incorporate and inclusion flaves of the set of the set of the set of the patter trady, incorporate and inclusion flaves of the set of the set of the set of the set the years, long occursely an end priced to their control to the set of the set of set of the years, long occursely an end priced to their control to the set of the set of the years, long occursely an end of the set of the set of the set of the set of the years, long occursely an end of the set of the set of the set of set to the years, long occursely an end of the set of the set of the set of set of the years, long occursely an end of the set of the set of the set of set of the years and been based. The set of the set of the set of the set of set of the years and company has lated in cases if later of the set of the set of the priced to produce costs. It will all object interest of set of the set of the priced to produce costs. It will all object interest of set of the set of the priced to produce costs. It will all object interest of set of the set on priced to produce costs. It will all object interest of set of the set on the priced to price occurs of the set on the text on many wears, linkeding through the sectored logistic costs.

regurnerships New Concepts when the distribution logistics business for which it has identified 20 notes arms to load under which long duration amorganicity with business partners whende through anothing posses, the drive and which Provide Armsed activation bigstics arms. The structures to operate modern sambourses and to maintain manage investing and distribution of the product, with the provided.

be provided. Alter participation in the Throught Advances Bolinews of the inclus Rokeway in March 2015, your company taxes to by sourchy abaded the centeral of the inclus Rokeway in March 2015, your company taxes to by our sourch abaded the center of the inclusions. The automatic that automatic been movined vary our by the automation. It is automates the the automates the automatic able moves of ways to be and the inclusion to the inclusions and the automatic abit abade them and the participation through about the company has included the time of abit abade them and a barry to be eventions. These attackes are publications and one public taxies burners and a barry to be eveness of automatic the automatic and the time of the participation of the possibility of an elements and the fact and approxed company, also barry to benefit (Click In Eggs in a structures and the fact and the participation of the possibility of an elements and Fact all Engeness and one to participation of the possibility of a structures and Fact all Engeness and the company and a barry to be end of the term of a structures and Fact all Engeness and one to participation of the possibility of a structures and Fact all Engeness and the company of the participation of the possibility of an elements and Fact all Engeness and the company and the term of the structures and the term of the fact and company of the participation of the possibility of the fact and company and the term of the fact and the structure of the fact and company and the term of the fact and the structure of the fact and company and the structure of the fact and the structure of the fact and company and the structure of the fact and the structure of the fact and company and the structure of the fact and the fact and the structure of the fact and the

Container Train service to Bangladesh has commenced and there are plans to start a new route to Negal va Batterba-Jogtan-Bristoger for the startill cargo of Negal through India's Gateway ports.

A mobile App for list mile last mile connectivity is being developed which will facilitate effo of services at minimum cost.

Some of the other medium and long-term strategies, include the followin

Some of the other resource and incryation strengtes, include the Informery - Entrance double activations for the interest and strate of an entry gradial improve dwell time of containers on post and training stall a Noticed Significant Strength (gradial improve dwell time of the strength strength and and VL22 (intergent conditional and Mundhartung Zhmi) - Dealsy tudy the heard scalars have a colored for but heraportation of content, acyreptial, iterat acyre, stand and, its in forme apportantiation. - Plan for off shows presence in the neighbouring countries.

ACKNOWLEDGENENT

ACXOMMESSORIEST: Singhood Level and late to communicate and housing. France and all implicits substrating Manchine of Latavase. Stopping Communicate and housing. France and all implicits substrations for your control of Communication and the communication of the communication matchinest substration and sponties and an environment and an explanation. The sub-stration matchinest substration and an environment and an explanation and an explanation in the stort and area affects. These advectives and advectoring the substration of the through sub-nic stort and area affects in a devective product the polarous muture score and advectoring the substration of the substration of the through sub-nic stort and area affects in a devective product the polarous muture score and explanation matching. Frank J, wood late to prove product the polarous approach on the the communitiest account and counted by the prove on expecting devector approach on the communitiest and count affects and a polarous the polarous muture score and explanation and a store affects and a polarous muture score and the proving contractione score applications. Official count and an explanation of the communitiest affects of the polarous muture score and an explanation of the communitiest and a store affects and a polarous the polarous muture score and an explanation of the muture score and a store affects and an explanation of the polarous muture score and an explanation of the muture affects of the store and the polarous the score of your Company and where a polarous muture score and a score and a score of the polarous score and a score and a score and a score of the score of the polarous score and an explanation of the score of the polarous score and an explanation of the score o

Thank you once again, Ladies and Gentlemen.

27" August, 2019 New Delhi V. Katyana Rama Chairman and Managing Director Note: This does not purport to be a record of the proceedings of the 31st Annual General Meeting of the Company.

4

4

G M



अवी नाषिक सामान्य बेठक मे अध्यक्ष महोदय का भाषण

प्रिय शेयरधारकों, देवियो और सज्जनों।

पहरवार. दे तोई की को सु आदाती अंगते ही अर्थी सार्थित सालय दिखा में अन अपने का डाउँक प्रयान को हुए सहुत सुग () अराज में तो की ने कोलाय से सुन सालन का लिय है कि मैं सा आपनी बना की अन्य की अपने की से प्रायम के सुन साल का दिस की मैं हा दिस्तिरिक मार्ट का स्वार्थ की से प्रायम के सुन साते हुए अपने हा हि के स्वार्थ ही सिर्फ कि से साल के स्वार्थ का स्वार्थ के सुन साते हुए अपने हा है कि अंग्रेडिय सात्र का स्वार्थ के स्वार्थ का स्वार्थ के स्वार्थ का स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ का स्वार्थ सात्र के स्वार्थ के स्वार्थ का स्वार्थ का स्वार्थ के सात्र का सात्र का स्वार्थ सात्र के सात्र के सात्र के सात्र का स्वार्थ का स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ की स्वार्थ के सात्र की स्वार्थ का सात्र के सात्र के सात्र के सात्र सात्र हो स्वार्थ के सात्र के सात्र के सात्र के सात्र के साते के सुक सार्थ स्वारण साहार।

में बारे बेहुए मारे साहा। आसरिक Phol? आसरप्रिय उत्तर के कि (सिर्फ्ल) की लियें के अनुसार से उठाक से बीरान गरेस्स अर्थवाराज उठार परि ही ने उठाक-19 के रोरान प्राथम की पीडीने के बार की पूरे हुई है। से किस अर्धवाराज उठार परि ही ने उठाक-19 के रोरान प्राथम की पीडीने के बार की पुरे हुई है। से किस अर्धवाराज के कार्यों क व्योधान प्रायम कार्या के प्रायम सा गाधित वारों के अरास है और जाते चली साम की कार्यों क व्योधान प्रायम के प्रायम के प्रायमित वारों के अरास है और जाते चली साम को सारी का प्रायम के कि दियान अर्था के प्रायम के अर्थान के के प्रायम के साम की सारी कार्य के प्रायम के प्रायम कार्य के किस का बार की प्रायम के के प्रायम के साम की साम है कि प्रायम के प्रायम के प्रायमित की साम है ही के बाता कि प्रायम की साम किस के प्रायम के प्रायम के प्रायम के प्रायमित करने के प्रायम के साम का साम की सार की सिर सामक वीजी का प्रायमित ही ही मात के की रेरा ही के बी साम कि कि बार हो के ही रोरान की कार्य के कि का का की प्रायमित करने के के प्रायम के प्रायम का प्रायम प्रायम किस के दियान के प्रायम के की कि का की प्रायम के कि का का की प्रायमान पर एक व्यायमित की की रियम की साम कार्यम के कि का का की क्या कि प्रायम के की प्रायम का की भी से की रोरान के सिर कर को की विकार के प्रायम के कि का की के प्रायम के की कार्य कार्य कार कार्य के बात के कार्य के कि की प्रायम के ति का की के की प्रायम के की प्रायम कार्य के प्रायम कार कार्यक की का की दियान की साम की प्रायम के ति साम के प्रायम के की प्रायम कार्य की कि कार की से तो से की जियादिकार को बाते की पार्य मार्ट की की की की कि बार कार्यकार की का सुदि रुख पर रक्त के की की साम की की कार्यकार का का कार के रायम की साम की की की की कि कार्य की कि कार की स्वर्ड का साम के की की साम की की की की कार की की कि कार की की कार कार्यकार के साम का का कार की की की की की की कार कार के की के कार कार का की कार्यकार का का का की कार की की साम की की की की कार की की कार कार्यकार के साम की कार कार की का की की कार की की कि कार की की कार कार्यकार का की प्राय का का कार की की बारी की कार की की कार कार्यकार का की प्राय का कार का का की की कार की की कार कि साम के कार कार कार का की की का की की कार कार की की की कार कार का की की कार कि कार के

क सब्देल केर समिदना के स्वार को 2006-18 के सीमत आपा निवल्ट किया है। 2016 निवल्ट किया के संपत्त प्रकार के के नाये सुनाई की सार्वेपक सोठा में 2016 की मुद्दे देन के से बें 2016-18 के संपत्त सिंहित पर की प्रवार कि स्वत-18 में 2020 में मिलन को गई रिक राज प्रवेशन पर कुत केंग्रेल्ड का मार्वे के 2019 की 2020 में मिलन को गई रिक राज प्रवेशन पर कुत केंग्रेल्ड का मार्वे के 2019 की 2020 में के स्वार को स्वार केंग्रेल के सार्वे के 18 का मिलन 112 की प्रकार के 2016 की मार्ग से स्वार को स्वार केंग्रेल के सार्वे के 18 का मिलन 112 की प्रकार की 2019 की सार्वे के सार्वे के स्वार को स्वार केंग्रेल की सार्वे के सार्वे के 18 का मिलन किया के 18 का सार्वे के 18 का मिलन 18 का प्रवेश के 2018 की स्वार्थ के 2018 की सार्वे के 2018 किया के सार्वे के सार्वे के सार्वे के सार्वे के 2018 किस आपती के 2018 की स्वार्थ के 2018 की सार्वे के 2018 किस से सार्वे के सार्वे के सार्वे के सार्वे के 2018 के 2018 की सार्वे के 2018 की सार्वे के 2018 किस से सार्वे के सार्वे के सार्वे के सार्वे के 2018 के 2018 की सार्वे के 2018 की 2018 की सार्वे के 2018 की 2018 का सार्वे के 2018 की 2018 का सार्वे के 2018 की सार्वे के 2018 की सार्वे के 2018 का सार्वे के 2018 की 2018 का सार्वे के 2018 की 2018 का सार्वे के 2018 के 2018 का सार्वे के 2018 का सार्वे के 2018 की 2018 का सार्वे के 2018 के 2018 का सार्वे के 2018 की 2018 का सार्वे के 2018 का 2018 का 2018 का 2018 की 2018 का सार्व के 2018 के 2018 का 2018 का 2018 की 2018 का सार्व की 2018 की 2018 का सार्व के 2018 का 2018 का 2018 का 2018 का 2018 का 2018 की 2018 का 2018 का 2018 का 2018 की 2018 का 2018 का

सामित भारतर नाम का आपनी रुपंतर में 2004-19 के दोरातर रेज में व अनुसा आधिक वार्वकरवतों पूर्व माडी दुष्टियनेन और सामी आर्ट्डीटीजी सी साम्याम के उपना कार्यिमालन किया है। आपकी वर्षमी में माया हिल्लेयती में क्या जीतित को है और लोग दर्ज तालू सिमान के लाम साम के प्रार्थ पर को है। मैं, जिन्सेम वोस्यूम, सिमीन निरमारम, औरसा, जाना के हजार सि के बरे में जानवररी आपके साम प्राहम करना भारता है, जोते का

प्रसर है। जिसेना सील्यू, रा-देवेश्वर इसे सामायराता ! कुछे सामे दूर कर स्वताला से हरी है कि आपको करता है। ते संवाहित लिए गए सीईयू, वाहज इस्तेव्रेश्वर हेन हेन्द्र सीक अपनाली ने जोत राज्य हाती दिमायरा ने किया है। सार्व 2016-16 में दारों 3 20 सिरिटर देदीयू का मांचला किया और रेव साम हाते 4 250 लाख टान कमो सिर्ज्य कोंग, को रिप्ले से प्रां कर कि साम 245 प्रत 2023 और है। (विद्य कर आपकी का से वी के मीकि सिराय न में जमार का 15 और 16 2023 को दूरि हुई राजीमालिन बने के तीतर, आपकी कजी का दिसा बारोजर 1.115 द्वरार 2150 कोई रहा है। साजिय 1.215 सर्वात उनके हो साम दोन प्रा को जी तुलना में 15275 अपने है।

सबस बाउदार (11) के 49-22 20 के 100 के 100 मांग के 100

C M

में जोड़ा पत्रा। 'श्रेदर्श्व जी सास्त्राम पूंचीकरण : - अगर्थ करने जग संदर्भ को 30,000 8 जो 9,374 करने हुए परे था, यह 31,03,00 8 जो बहरूर 18,06 करने हुए ते प्राया दिसांक 20,000 8 जोड़ प्रपत्रे ही गया। या जेन बहरण 31,03,2018 को 32,008 करोड़ प्रपत्रे ही गया।

<text><text><text><text><text><text>

पाकी को रमायमा करन्त्र कर्न्ट महत्व एंच सावद पाइज सोल्युरात्र के लिए वेमस्क्रावील पेनेजमेट, ई-ऑगर्स, लॉजिस्टिक पोटलॉर्ग के रूप में युवाव प्रदिय्वेनियी नव नडन करात्रेत्व | -अप्रजन्तेन ज्यान्येन्य

प्रभाव भाषताने पुरुष कर रिवार 1 (या सांग हर 10 राज सांग व स्थावित का पर है है हाते अ सांगती मासलावित कराइ के सिंदत वा सेंगे। इसने सड़क मार्ग वा परिवार के सांगर पर सिर्वात हो दाएगा। संस्थान के सांगर कह तियाँ सटरावर सिर्वा (इसने सड़क मार्ग वा परिवार के सांगर पर सिर्वित के सांगर कह तियाँ सटरावर कि प्रभाव की हा के देव क्या होता के माराज की पारं के आहम सांगर का सांगर की पुत्रे में प्रमान पूर्व के सांगर के सांगर के सांगर के सांगर की सांगर के सांगर का सांगर का सांगर पति सीरियेटला से प्रभाव की पारं के अनुस्य सांगर का सांगर का सांगर की पति है के सांगर पति सीरियेटला से प्रभाव की सांगर के सांगर की सांगर की सांगर की पति के सांगर की सांगर पति सीरियेटला से प्रभाव की सांगर की सांगर की सांगर की सांगर की सांगर की सांगर पति सीरियेटला से प्रभाव की सांगर की सांगर की सांगर की सांगर की सांगर पति सीरियेटला से प्रथा की सांगर की सांगर की सांगर की सांगर की सांगर की सांगर पति सीरियेटला से प्रभाव की सांगर की सांगर की सांगर की सांगर की सांगर की सांगर पति सीरियेटला से प्रभाव की सांगर की सांगर के प्रभाव सांगर की सांगर की सांगर पति सीरियेटला से प्रथा की सांगर की सांगर के प्रधान कर सांगर का सांगर की सांगर के सांगर का सांगर की देते प्रथा के सांगर के प्रधानन का सांगर की सांगर की सांगर के सांगर की सांगर की सांगर की सांगर की प्रधानन कर सांगर का सांगर की सांगर की सांगर का सांगर की सी से प्रथा के सांगर के प्रधानन कर सांगर कि सिर्वात के सांगर की सीर्व की सांगर की सीर्व की सांगर का सांगर की सीर्व के सांगर कर सांगर की सांगर की सांगर की सांगर की सांगर की सांगर का सांगर की सीर्व का सांगर का सांगर की सांगर की सांगर की सांगर की सांगर की सांगर करन सांगर सांगर सांगर की सांगर के सांगर का सांगर की सांगर का सांगर का सांगर का सांगर का सांगर की सांगर की सांगर की सांगर की सांगर के सांगर की सांगर का सांगर कर सांगर की सांगर की आप की की सांगर की सांगर की सांगर की सांगर के सांगर कर सांगर की सांगर के सा

पाल में जिनेल एकारेट का प्रार्थ्य ईडीला क्या करन एकाडगी स्वतिक गरितियों की साले हेतु देखोर एवपार्ट दर्शित गरितिक प्र. दि. से स्वयं क्या निया है। से स्वतिक दे सुराष्ट्र में दिनुद करेलेहेकुव सीरालन हे हुनि बोलियों सीराज का दि. के साय कपर स्वित है। बार्ट्सा इटरनेगाल कर्ष्ट्रार दर्शित का सि. से प्राय लग्रदीया ज्ञान दिन्देर्श जीवकी से प्राय

रूपा है। इटरोगनल करेंतर टॉनिनल ज्राही, के राष्ट्र रणक्रोण डाय्यन जिसने कोनकॉर के पास होटोपोएस और विभिन्न कईसीडी/पानो तक कंटेनर रेक प्रताने हेशु विभेच रूप से देल सक 19 डॉक्सिस होगा।

के बहेती रोते रोता के प्रति के प्रतान अपनाल के स्वार्थ के प्रतान के प्रति के प्रतान के प्रतान के प्रतान के प्रत के प्रदेश के अग्रेस को प्रतान करने के प्रतान के प्रति के प्रतान के प्रतान

• मा, लुम, लेन के सिंग्ल्य के सारवा भी सामान के साम के सामान के साम का साम का साम का साम के साम का साम का साम का साम का साम का साम

प्रा. अ अब राज्या (उपयुत) महानेत करने का मिता राउटा महान कर मिता (संचार सेन कृष्ठ सिनोले से संचार) माइ ठाउटा कर उपरा के साथ के प्राय की स्वार्ज कर उपनिश्च पर स्वार्ज कर के साथ कर प्राय के प्राय करने के प्रार्थित प्राय के साथ के राज्य स्वाराय कर साथ के साथ कर साथ के प्राय के प्राय का साथ कर साथ कर साथ का साथ के प्राय के राज्य के राज्य के प्राय करने के प्राय करते के प्राय करने पर निया के प्राय के कि प्राय के प्राय

स्वती है। अपने है निर्मात जासन की जिदित्व कीतिये जेंद वागरियों को देवाद कार्यों का अपने करवाने अपने है निर्मात है। हम तर्ज प्रत्त के अपने को त्यने को तिक का अपने करवाने है का अपने कि प्रत्य है। हम तर्ज प्रत्त के अपने को त्यने के ती कीत का अपने का का का लोग के ती है। के प्रत्न कि हि है। अपनेक सामाजिक समीला :

भाग कि वि विभूतिया सामान्निक साहित्य : विभूतिया सामान्निक साहित्य के सामान्निक सातन्क रागी के सामानिक अंग आर्थिक दिस्ताल के लिए साहित्य हैं प्रार्थना सामान्न के सामान्निक सार्थना के सामान्निक के सामानिक ही के बेस सामान्न के सामान्निक सी को प्रारंभ के साहित्या के सामानिक सामानिक ही के बेस सामान्न के सामान्निक सी को प्रारंभ के साहित्या के सामानिक सामानिक की साहत्या का साहित्या स्वार्थना के साहत्या के साहत्या के सामानिक सामानिक सामानिक को सामानिक साहत्या स्वार्थना साहत्या के साहत्या साहत्या के साहत्या का साहत्या के साहत्या का साहत्या स्वार्थना साहत्या साहत्या का साहत्या के साहत्या साहत्या साहत्या को साहत्या के सात्रा साहत्या स्वार्थना साहत्या के साहत्या साहत्या के साहत्या साहत्या साहत्या का साहत्या के सात्रा सी साहत्य सुरावान्द्र से साहत्या साहत्य के साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या के सात्रा सी साहत साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या का साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या के सात्रा सी साहत ही साहत्या सांग्र साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या के सात्रा सी साहत साहत्या सात्या साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या सात्या साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या सात्या साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या साहत्या सात्या साहत्या सात्या साहत्या सात्या साहत्या साहत्या सात्य

अतर दर्शत के गाउँगर के सुविधान्त्रिय के आधि के अधिराज्य के सा किरमा के स्वा अधि कर स्वा के स्वा के सा कि सा किरमा वी कि सि उन्हें कर से सा कि अधिराज्य के सा के सा के सा के सा कि सा कि सा की सा कि सा की सा कि सा के सा कि सा क

• वीसरेलन तिक से लेहाराजर पर जिर को में सर्वाती सेता है के सिरेलगुरात को स्वर्थ में मां जा प्रकार करते के स्वर्टन करते के सिर्वलगुरात को स्वर्थ में मां जा प्रकार के स्वर्टन के सार्वलगा के साविधान सेता हुत है। हा तिवर्स कुछा का स्वर्टन की सिर्वलगुरात के स्वर्टन के साविधान सेता है। स्वर्टन के स्वर्टन के सार्वलगा के साविधान सेता हुत है। हा तिवर्स कुछा का स्वर्टन की सावधान के सार्वलगा के सावधान सेता राजा के सार्वल कि सार्वलगा के सावधान हों सावधान के सावधान क सावधान के सावधान के सावधान के सावधान के सावधान देखात सावधान सावधान से सावधान के सावधान के सावधान के सावधान के सावधान के सावधान के सावधान सावधान के सावधान

(7)

5

- unv al 1978 8 gp cm stark 1.
- unv al 1978 8 gp cm stark 1.
- unv al 1978 8 gp cm stark 1.
- unv al 1978 8 gp cm stark 1.
- end the self-const stark 1.
- end

च्यांगी (2) के उत्तर-प्रते रहा पीयूरगी दर्व कान के प्री प्रेणा।
 च्यांगर :
 उत्तर में द करकती सिगार्ज, तिगंक लग के देखरे (त्रिणिंग, जाणिव्य और वायंगे, त्रिव और सामी नियाजक काल करता है। के अपनी गर्ज गरांग कर की अपने का होगा गरावगे।
 प्रतिपत्र के अत्याद्र का नियं के राजे प्रा वारंग प्रा वार्थन कर की देखर के लाग करने कर को काल कर काल कर काल कर काल कर काल के त्रिव प्रा वार्थन कर की काल कर काल कर काल कर काल कर काल कर काल कर काल के काल कर काल कर काल कर काल कर काल के त्रिव प्रा वार्थन कर काल कर काल कर काल कर काल कर काल कर काल के लाग प्रा वार्थन कर काल कर काल कर काल के कि प्रता कर काल के त्रिव प्रा वार्य के काल के त्रिव प्रा वार्य के त्रा की वार्य के त्रा की काल के त्रा वार्य के त्रा की काल के त्रा वार्य काल कर काल के के त्रा प्रा वार्य के कि काल कर काल कर काल कर काल के काल कर काल के कि प्रा वाराय कर की काल कर काल के कि त्रा वाराय कर ता के कि त्रा वाराय कर ता के काल कर काल के कि प्रता कर काल के कि त्रा वाराय कर ता के काल के कर काल के त्रा वार्य काल कर काल हा हा है।
 वार्य के त्रा वार्य के त्रा के त्रा के ति त्रा ताराय कर के लिए ताराय काल कर काल हा हो हा वे काल के कर जाए हा ही का की तरा ता करना के ता काल कर वारा हा ता के ता के ताल कर काल हा हा हा वारा के ता के काल के ता काल कर काल काल हा की ता ता काल कर काल काल हा के ता के काल के काल हा वार्य के लाया के काल के काल कर काल के ता काल कर काल के ता काल कर काल काल के काल के काल के ता काल कर काल काल काल काल काल काल काल काल काल को काल काल काल काल के वारा काल के ता के लाग के ता के काल के वारा काल के ता के ता काल काल के काल के ता काल कर काल काल काल काल हो।

27 सगस्त, 2019 नई दिल्ली तिजन्माण राणा स एवं प्रबंध निदेशक

अभयो १५ नोटः यह कंपनी की आंधे गायित सामाप्य बेठक की कार्यवाही का रिकॉर्ड पही है।

Тие Есохомис Тимез नई दिल्ली बुधवार 28 अगस्त 2019

E

U

The for

AT

देश दुनिया

कॉनकॉर

CONCOR

T (

-

- F

ARC:

-

h

. व्या का का स्वार अवस्था का स्वार नहां। सुदाया जाएएता 1

7

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : सी--3, कॉनकॉर वहन, मधुरा सेड, अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली - 110076 (सोशाईएन : L68011DL1988(GOI030915)

ई-मेल : Investorelations@concorindia.com, रेक्साइट : www.concorindia.com

फोल: 011-41673093-96, फेल्स : 011-41673112

------अर्ची चार्षिक सामान्य बैठक में अध्यक्ष महोदय का भाषण

प्रिय शेयरघारकों, देवियो और सज्जनों।

....

नगरवर, 4, मैंदे की कोर में, साबसी करने की उसी प्रति सामय देखा में उस मार्ट के सार्टन के 4, मैंदे की कोर में, साबसी करने की उन्होंन पर के देखा करने का पुछे कोर्जना के की दे आपनी बन्दी की उस गई के लोग का रहा है। की प्रता करने देखा सामना का किए के दि के सुध मुद्दी कि रहत के प्रति के प्रति का प्रता है। की प्रता का की दुर काम इस है कि अपनेत कि सार्ट कोर्ट कि से प्रता के सार्ट के प्रति का प्रता है। की प्रता का की दुर काम इस है कि अपनेत कि सार्ट कोर्ट कि सार्ट के प्रति का प्रता है। की प्रता के प्रता हम है कि अपनेति की प्रत के प्रति के प्रति के प्रता का प्रत के की प्रति के प्रत करने की की प्रत के प्रत की प्रत का प्रत के की सार्ट के प्रत का प्रत का की दिना अपनेत की प्रत के की प्रत के की प्रत के सार का प्रत के की सार्ट के प्रत का प्रत का की दिना अपनेत के की प्रति का की प्रति कि का प्रत के की सार्ट का प्रत की प्रत का प्रत के की दीना अपनेत के सी कि का सार्ट के सार्ट के स्वात का प्रत की प्रत का प्रता के की दीना अपनेत की स्वात की स्वीत की का की को सार्ट कि सी का का प्रता का स्वात

में कई देखा को साला गढ़ता। अस्तिक दिश्वी, अस्तिक 28 की अन्द्रेश की किर्ट के जुझाए को आंक है देखा गरीस अर्थासाला अस्तिक 28 की अंग अन्द्रेश की सार्ट के जीवंदी देश हा दी हूँ हैं है। दिरंड अर्थसाला के सार्ट के अन्द्र के देखा है। का साल से की सार्टन के देखा प्राय के स्त्री के बार रही के सार्ट के सार्ट के देखा के सार्टन के सार्टन के देखा प्राय के बार रही के सार्ट के सार्टन सार्ट के सार्ट के सार्टन के सार्टन के सार्टन को सार्टन के सार्टन के सार्ट के सार्टन के सार्टन के सार्टन के सार्टन के बार रही के सार्टन के सार्टन के सार्ट के सार्टन के सार्टन के सार्टन के बार रही के सार्टन को सीत सार्टन के सार्टन बार्टन के सार्टन का सार्टन के सार्टन बार्टन के सार्टन का सार्टन के सार्ट के सार्टन के सार्टन कर सार्टन के सार्टन का सार्टन के सार्टन का सार्टन के सार्टन का सार्टन के सार्टन का सार्टन के सार्टन का सार्टन के सार्टन का सार्टन का सार्टन के के सार्टन के सार्टन

भ से सुप्ता के साथ प्राप्त के साल के 2016-19 के प्राप्त के साथ कि सिमार किस है। के रहता कि साथ के साथ कि साथ के 2016-19 के प्राप्त के साथ का निष्ठायन किस है। के रहता के ता का साथ का साथ कि देखें के कार्य प्राप्त की साथ-19 के 2020 किसिक पर की प्राप्त के साथ का साथ कि साथ के 2016-19 के 2020 कि 2016 के 2020 के साथ की साथ के 2016-19 के 2017 कि 2017 के 2017 के 2019 कि 2020 कि साथ का 2017 के 2017 के 2017 कि 2017 के 2017 के 2017 के 2017 कि 2017 के साथ का 2017 के 2017 के 2017 कि 2017 के 2017 के 2017 के 2017 कि 2017 के 2017 किस हो 2017 के 2017 के 2017 कि 2017 के 2017 के 2017 के 2017 कि 2017 के 2017 किस हो 2017 के साथ का 2017 के किस हो 2017 के किस हो 2017 के 2

भियानन् के विराण हाप्यात के मान नाम मान सारह है दिवरों से वीर्गमुद्ध, इरीजोर हु के सारम करनी ने मार्टील किए गए तीड़ू सावत इर्फोक्स के से रह रोग्ट के पालने ने जोत दान दो भियान्त ने तिया है। वर्ष उठा- के मैं सारों उठा के से रह रोग्ट के पालने ने जोत दान दो भियान्त ने तिया है। वर्ष उठा- के मैं सारों को से तुरुष में मानक सित्र के दि हा क्रमें के सार के पालने के सार्व के प्रा को सी रहा मान के सार है दे हा के सार्व मार्ट के सार के सार के सार को सी तुरुष में मानक स्थार हो है। इस क्रमें के गिया के सार्वित स्था पाजों के पीलन को सी तुरुष में मानक सार हो के सार सारक सार्वना राज हो के सार के सार के सार के सार के सार के सार यो ना के सी जी तुरुष ने सारफ कोल है।

यो का सर्व ही तुम्लूम में 121% उन्दित है। पुर्वमिया सार्व : सार्व : उन्दार्थ के प्रति के सार्व : प्रति के प्रत के के प्रत के के प्रत के प्रत के प्रत के के के प्रत के के के प्रत के प्रत के

से फोट्ट भी बास्तास पुंती करना: आपकी अपकी बासे टकार्ट पर 1300 2004 को 9,374 करोट करके का दर 3100 2019 को बढ़कर 10.288 करोटे करने तो पता दिनाक 1500 2018 को करने का साटन युर्जीकरन 30,346 करोड़ करने था और बहल 51,512 019 को 32,2009 करोड़ करने ही गया।

सरमान, स्टोक सरितिर एवं भोगस : हिमोली निमान्दर, 'कोम्ब दी कह अत्यादकातां और 2016-16 की दीवाई मिल्लूम (DDRM) हिमोल्टोनो को प्राप्त के बरे रहते पूर हो बर सुरों का करने मैं सालकता ही रहते हैं कि आपनी का काने के विरोध अध्यात के ह स्वयं पूर्व के मैंगर पर 825 करने की सालकता हो रहते हैं कि आपनी का काने है में पुराप्त की पत्रों को रेस रहते पूर स्वयं का राजा की सिती था में से अकिस नामक की मोज कर स्वरंग के सिर सालकता किया कर स्वरंग सालक किसी की आये से अकिस नामक की मोज कर आपने के के स्वरंग स्वयं का आपनी से सीता राज्य किया का किस्ता का दिस्ताओं की मानिदोंने साने भी भी स्वरंग में स्वरंग की सिता किस्ता किया पत्र के सिर सालकता किस्ता का स्वरंग सालक किसी किस्ता कि स्वरंग के स्वरंग किस्ता किस्ता किस्ता के से मानिदोंने साने भी भी स्वरंग सालक का सात कि स्वरंग के सिरा कि स्वर-किस्ता है किया मान, पत्र की स्वरंग सालक का सात किस्ता के स्वरंग की सान किस्ता कि सान-देखिल्ल किया मान, सात्र की सिरा सात का सात्र कि स्वरंग की सात्र की स्वरंग कि सात की सात्र का स्वर-किस्ता है कि सात्र का की सात्र अपना सात्र का सात्र के सात्र कि सात्र के सात्र की सात्र की सात्र का सात्र कि सात्र की सात्र सात्र की सात्र किस्ता की सात्र का सात्र का सात्र का सात्र का सात्र की सात्र किस्ता की सात-किस्ताह किया मान, सात्र की की सात्र कि सात्र कि सात्र के सात्र कि सात्र के सात्र की सात्र की सात्र की सात्र का सात्र कि सात्र कि सात्र की की सात्र का सात्र कि सात्र के सात्र की सात्र कि सात्र के सात्र की सात्र की सात्र का सात्र कि सात्र कि सात्र कि सात्र की सात्र कि सात्र की सात्र कि सात्र की सात्र की सात्र की सात्र की सात्र की का का सात्र कि सात्र कि सात्र का सात्र का सात्र की का सात्र के सात्र की सात्र सात्र का सात्र की का की का का सात्र की सात्र की सात्र की सात्र की सात्र की सात्र की का की का की का की सात्र का ता की सात्र की सात्र को सात्र की सात्र की सात्र की सात्र की सात्र गाम, स्टोक संप्रिट एवं बोनस

AN AN

पर-अन्यानुक क्या गया | सार काठित, काउंचे 394 के अभी में आपना से बाद से सेवले का तैया रेपत हुए 1 4 के अनुसा के पाठि कियां कार्य की क्या के कार्य मुंदर के अनुसा के पाठि कियां कार्य के आपनी कार्य में प्रकेश के बाती कियां के बात के सिंह सार से एक सामृष्ट 4 केंद्र कार दे र आपनी कार्य में प्रकेश के बाती किया के बात के स्वर्ण के साम्य कार्य केंद्र कार्य के अपनी कार्य कार्य के पुत्र कारों के दिस आपनी के बात के साम्य केंद्र को का धारा स्वारा है। पुरुषता ने से अपनी कार्य साम है किया की दिस आपनी के बात के साम में स्वार के साम के बात के अपना कार्य साम है किया के साम के साम के साम के साम के साम के केंद्र के वा धारा स्वारा है। ट्राटपोस्ट से गिला के अपना कार्य कार्य के साम के सिंह की अने साम साम के साम के साम के साम के बात के साम का बात के साम के कार्य कार्या कार्य के साम के सिंह की कार्य के साम के साम के साम के साम के साम के साम का साम के साम के साम के साम कार्य कार्य के साम के

भारत का त्यापण करना. भारते महत एव त्यारेट माहत सीत्युरान के सिए वेवरहावनिम मैंगेजमेट, ई-कोन्स, सीविस्टिका खेटलॉर्च के रूप में सुराम प्रेटवोगिकों का महन उपयोग। भारतमी मान्यानी म्यानीना

धापना, सल्दीन श दे पही है।

सरकार दे भी है। हस्ती से सुनुत उस अंभ्वीका नाफा सिरमुत कॉन्डॉर देश अंभी ति (एससिम्म्रेसिक) प्राय प्रायत सोनिदिश्वर अल्डारकर सि, (एससिम्म्रेसिक) सांस्टाक अंभ्रेड भी है का को इन्हरा काराइयेड समय प्राय अंभ्रे सालेगती से कारोत की गई है। इन्हें भी है का को इन्हरा काराइयेड साम्या प्राय अंभ्रे सालेगती के सालित की गई है। इन्हें भी है का की अल्डा साल्याइयेड संस्था है सामित कर साली। इससे लड़क पर्ग का परिवान से भर्ग पर शरिवील काराया

अल्ल करणपाल पुरुष का राज्य । एसा आण हा गा लेक वर्ग व व वासीया को नई है अब का लाग का कारणपाल प्राप्त का रहा के स्वार्थ का प्राप्त के स्वार्थ का कारणपाल का राज्य रही के प्राप्त का नाज्य रही के स्वार्थ का कारणपाल का राज्य रही के प्राप्त का राज्य का कारणपाल का राज्य राज

भारत में लिंधन एपरवर्धने पर कार्यन हे होन्दिए तथा जन्म एपरवर्तना गंगीयेन मंत्रिकियों को बासने हैं।] नैप्तरेए एपरवर्तने टे जीतना बर्डियन का हि के साम कारत किया है। नीन्द्रिय ने मुद्रापुर में निराद बटेन्सीहूल भरिकारना हेनु तिज मैरियां रोडवेज का हि. के साथ जगा किया है।

- []

रहे जागात है। के गाँध के किरेना उनके से अपने नार्विधियों को प्रायलन करते हैं। उनके सिंह रिक्राज के कोर्ड अपने किरेना के सिंह करने का किरेना के सिंह करने किरेना के सिंह अपने के सिंह सारक रहे सिंहिम सारकों के की सारकों करने के सिंह करने किरेना के सिंह अपने के सिंहम सारक रही सिंहम सीती की सा जागरिवा की से सिंह करने का कि सिंहम के राज्य कि से का बार करने के सीती की के जागरिवा की से सारक के स्वार्थ करने के सारकों किस है। की स्वार्थ के सीती के का जागरिवा की सीता कर का सुधान के साय प्राय सारकों के सारक की सारक की सारक की का करने करने के साम की साय प्रायत के साय की सारकों का सारक की सारक की सारक की सारकों के सारकों के सारकों के सारक की साय प्रायत सिंहम की सारकों के सारका के सीता की का करने करने की साय की साय राज्य की साय की सारकों के सारकों की सारका की सारक की सारकों की सारकों के साथ की सारकों की सारकों के सारकों की सारकों के साथ की सारकों की सारकों के सारकों के साथ की सारक सीतकों की सारकों के सारका सारकों सारकों की सारकों के सारकों के सारकों के साथ की सारकों की सारकों के सारक की सारकों के सारकों की सारकी सारक सारकों की सारकी सारक सारकी सारकी सारकों की सारकों सारकों की सारकों सारकों सारकों सारके सारकों की सारके सारकों की सारकों सारकों की सारकों की सारके सारके सारके सारकों की सारके सारके सारके सारकों की सारके सारक की सारक सारकों की सार सारकों की सारकों की सारकों की सारकों सारकों की सारकों की सारके की सारके सारकों की सारके सारके सारके सारक की सारकों की

सुख्य के लिगड़े बाते के सिर प्राप्त प्रदर्श, कवा प्रत्य, लातनान्तु का पुरुषक ने भारत का (कोटिकल के के प्रतास विषयत गितिविधा वास्तार के दिवासे किएक सामे के 60 जुसक सार्वनित दुधे। कोरतीर के 20 अधुव सार्वा या 68 देश्य के अवसेतित हुए दिसासे लगाग 64.165 स्टेक्शेल्स्स (कार्वनित हु)। कार्वनित हु)।

अत्यार है थे 7 पुंचे मिलन जानिया है! जानिया है अध्यक्षता के अन्त्राताल में प्रधादमध्य किराव देव तातावता की जी। जुस्ते अन् कार्योंन करी बाजी को जीताला प्रभाद स्वर्थि की मार्ग स्वाधार की त्रेलानी कार्योंन कर के दिन स्वत्र की भी स्वाधी कि जानवे पर भोगाताले का निर्णत स्वाधार की त्रेलानी कार्योंन कर के निराव स्वाधी की स्वाधान के निर्णत के स्वाध स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधार की त्रेलानी कार्योंन कर की निराव करने का विष्ठास्त के स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा के हिन्दी को स्वाधान स्वाधा स्वाधा स्वाधा का स्वाधा का स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा के स्वित्रा कि स्वाधान सिंह स्वाधा की स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा के स्वाधा के स्वाधा के स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा के स्वित्रा कि स्वाधान सिंह स्वाधा की स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा के स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा के स्वाधा के स्वाधा की स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा का स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा स्वाधा स

तीतपतुद्ध जगर एव न तिकाल क्रिया गया।

IN INCOMPER

• रियोगाल दिवारी में विद्युवार बात किए पाने में संगति होती के विदेशपुरुष अध्यान के आग प्रांत के मार्टिन के अपनी अध्यान के विराणगढ़ना करने नागान हैं, स्वित्यादा के पुता है रहा कि कार्टन के अपने क्यांगत के विराणगढ़ना करने नागान हैं, स्वित्यादा के कार्यम के विराण के प्रांत के कि कार्टनाइन के किंग के प्रात्मा के कार्यम के प्रार्थ के साम करते के किंग के प्रात्म के किंग के साम के कार्यम के प्रात्म के किंग किंग के किंग किंग के कार्यम के प्रात्म के कार्टना के किंग के किंग के कार्यम के कार्यमिल कुए से किंग्राइन कर के कार्यमाल के कार्यम के देशा करते के कार्यमाल के कार्यमा के कार्यमा कार्य के विराण के कार्य के कार्यमिल करते के किंग्राइन कर के कार्यमा के के किंग के कार्यमाल के कार्यमान के कार्यमा के कार्य के कार्यम के कार्यमा के के कार्यम कार्यमाल के कार्यमा के तार्यमा के कार्यमा के कार्यमा कार्यमा के कार्यमा के कार्यमा के के किंग्रा के कार्यमान के कार्यमान के कार्यमा के कार्य के के कार्यमा कार्यमाल के कार्यमा कार्यमाल के कार्यमा के कार्यमा के कार्यमा कार्यमाल के कार्यमान कार्यमा के कार्यमान के किंग्रा के कार्यमा कार्यमाल के कार्यमा कार्यमाल के कार्यमा के कार्यमा कार्यमाल के कार्यमा के कार्यमा कार्यमाल के कार्यमा कार्यमाल के कार्यमा कार्यमाल के कार्यमा कार्यमाल के कार्यमा के कार्यमा कार्यमाल के कार्यमा कार्यमा कार्यमा के कार्यमा के कार्यमा के कार्यमा कार्यमा कार्यमा के कार्यमा कार्यमा के कार्यमा कार्यमा के कार्यमा के कार्यमा कार्यमा के कार्यमा कार्यमा के कार्यमा के कार्यमा का कार्यमा कार्यमा कार्यमा के कार्यमा कार्यमा के कार्यमा कार्यमा कार्यमा के कार्यमा कार्यमा के कार्यमा कार्यमा के कार्यमा के कार्यमा के कार्यमा कार्यमा कार्यमा के कार्यमा कार्यमा के कार्यमा कार्यमा के कार्यमा कार्यमा कार्यमा के कार्यमा कार्यमा के कार्यमा कार्यमा कार्यमा के कार्यमा कार्यमा के

रस्वार जार गण्डते । गांधी अपने भी वायलीमां और विवादन को देखते हुए विभिन्न पुरस्वात और सम्मान से सम्मतीस कारण है। इसने में कुछ का प्रथम है। प्रथम प्रेर्ट्ड में के प्रथमित कार्यक्र का संस्थाप विषय क्रांत्रेज़ के प्रथम के कार्यत वायलम के प्रियम प्रायम कारण के प्रियेश्व कार्यक्र - 2014 के जातीन क्रम्स मार्ट्स्सार इतिहर का स्मान कीर्मी कारण के लिए करना।

জীপনী অসম ও হিন্দু থকা। দ্বানাৰ্যৰ জোনিনিকাৰ পানীন ক্ষম ব কৰ তে ইত্ৰমুঠিৰ বিচেন্দু এখাৰ্ড 2018 কী বিৰুদ্ধ উপনিয় উপন্য আৰক্ষী আঁঠন পানাবেলৰে বাছিৰ মনো বিত্যা গায়। গলাৰ্থ কাৰীনিধিকাৰ পানিত 2018 ব আইবীনাই নাহৰদৰে বা ইংকৈছেৰ নিয়ে হানা কৰাই নাতিনিবেৰা আৰক্ষী কিনা আৰ

control and a single service and a second second set and a service defined a linear service and the second secon

वाली देश के अल--देश पर प्रीयुटनी दा बाने के विदेशना
 वाली देश के अल--देश पर प्रीयुटनी दा बाने के विदेश दानिष्ठ और वाटी, दिन और स्वी नियन्त आग दे ता तरावे विद्या को वाटा के तरावे होती के बाला देनेंग सायरेग करने के बिजन्म आग के बात है 18 अपने करी वाटा के विद्यालय की साम करने मात्र राज्य पर क्रमिश के कि स्वयु के बात है दिन करने करने का कि बाला देनेंग साम करने के बात हाने कि स्वयु आग कि बात है 18 अपने करी करता करने का कि प्रायु के कि साम के कि साम के स्वयु के बात है दिन अपने का कि साम करने के कि साम कि साम के कि साम के साम करने के बात है दिन करने के बात के कि साम कि साम के साम करने के साम कि साम करने के दिन प्रायुप के साम करने के की साम के साम के साम के साम कि साम करने के साम कि साम करने के दिन प्रायुप के साम के बेदी के सामित की दीन प्रायुप साम के साम कि साम के दिन साम के कि साम के साम के साम के कि साम के की आप के साम के कि साम के आप साम के साम कि दिन साम के कि साम के साम के साम के साम के साम के की आप के साम के

वी.कल्वाण राजा १स एवं प्रबंध निदेशक मोट- यह कपनी की 31वी वार्षिक सामान्य बैठक की कार्यजस्त्री का रिकॉर्ड नहीं है।

27 अगस्त, 2019 नई दिल्ली

14 आयाम

नई दिल्ली | 28 अगस्त 2019 युधवार विज़नेस स्टैंडर्ड

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : सी–3, कॉनकॉर भवन, मधुरा रोड, अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली - 110076

TOT

(सीआईएन : L63011DL1988GOI030915)

ई–मेल : investorrelations@concorindia.com, येवसाइट : www.concorindia.com फोन: 011-41673093-96, फैक्स : 011-41673112

अर्वी वार्षिक सामान्य बैठक में अध्यक्ष महोदय का भाषण

k

E

प्रिय शेयरघारकों, देवियो और सज्जनों।

We then the series of the set of the series line is any set on performance of the series of the set of the series of the set of the नजस्कार. में, बॉर्ड की

We are a given that the second secon

ते जानकर तथा किया के पुरा के राज्य प्रायंत्र के सारमुप कार्विक कार्यक्रमात पूथ नहीं दुरिकॉम की सही के उसके 4 प्रायंक्षियों के उसके के सारमुप कार्विक कार्यक्रमात पूथ नहीं दुरिकॉम की सही को जी के प्रायं के कार्यु कार्याव्यक्त के प्रायं या प्रायं के प्रायंत्र ने कारण निर्वाध के बाद में तो है अपने सार को कार्य विवास के प्रायं या प्रायं के प्रायं के निर्वध के जिसके किया पर हो प्रायं नाज्य जानके के बाद के जानकों प्रायंक नाय नावा करने वाल के ही जीकि होने हम

तता है सिकोग सीमुद्द अविषय पूर्व सायदाता । युव कार पूर्व पर मान्यल सा तो है कि प्रायों कार्य के सार्वति कि ता ही देखू, सावस वर्थवाव के सार प्रोपक का सा के पर पूर्व कि प्रायु में पिता है के सार्व प्रायु के सा की अधिक सोयू का स्वात्मक स्वार पर सार प्रायु के सा प्रेरिक सा की व्याप्त कुछ सा की विज्ञ के प्रायु के सार स्वार पर सार की की 1 जिस्स की सार्वति, प्राये प्रायु के बनी किस्सर के सार्वन 1998 की 2013 में प्रायु के सार की सा का की सार प्राय किस्सर के सार 1998 का प्रायु की प्रायु की सामय की सा के सी प्राय की सा का सार सा के सार प्रायु का का दा सा सा सा प्रायु की 10 का का का सार का सार सा की प्रायु के अपने का का का सा सा सा प्राय की साथ ही गया का सार सा की प्रायु के अपने का हो।

भूत भी सार प्राथम में भारत के दिन है। स्वित्र प्राय प्रितिश्व के में प्राथमांने प्रार्थ के दिन स्वालाक विजये प्रायम्पुरू स्वात्रा के दिन्स प्रायमें करों के प्रायमांने प्रायमें के प्रार्थमंत्र के प्रायम् अन्य स्वात्र प्रायम प्रायम् के प्रायम् के प्रायम् के प्रायम् के प्रायम् अन्य स्वात्र प्रायम प्रायम् के प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम् कार्या प्रायम् अन्य स्वात्र प्रायम् वर्ष्याः के प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम् कार्या प्रायम् अन्य स्वात्र प्रायम् वर्ष्याः के प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम् कार्या प्रायम् अन्य स्वात्र प्रायम् वर्ष्याः के प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम् कार्या प्रायम् अन्य स्वात्र स्वात्र्यम् स्वात्र के प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम् वर्ष्याः प्रायम् प्रायम् के प्रायम् वर्ष्याः के प्रायम् वर् प्रायम् वर्ष्याः के प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम् वर्षेत्र स्वात्र्यं के प्रायम् वर्ष्य स्वात्र के प्रायम् वर्णे क्राण्याः वर्ष्याः क्रायम् प्रायम् प्रायम् वर्ष्याः स्वात्र्यं क्रायम् वर्ष्याः स्वात्र्यं क्रायम् वर्षेत्र स्वात्रं के प्रायम् वर्षे प्रायम् वर्णे प्रायम् वर्णे प्रायम् द्वित्रिक्र कार्यक्रा प्रायम् वर्षेत्रं कार्यक्र व्यात्रं प्रायम् प्रायम् वर्णे प्रायम् के प्रायम् वर्णे प्रायः द्वितिकां कार्यक्र प्रायम् वर्थितं कार्य्यं क्रायम् वर्षेत्रं व्यात्र्यं के प्रायम् वर्षे प्राया के व्यात्र्यम् प्रायम् वर्णे प्रायम् व वर्णः प्रायम् वर्णेत्रं के प्रायम् वर्षे प्रायम् वर्षेत्रं वर्ष्यं के व्यायम् वर्षे के व्यात्रे वर्यः प्राया के व्यात्रं प्रायम् प्रायम् वर्णे प्रायम् व वर्णः प्रायम् वरित्रं के वित्रं वर्याव वर्यायम् वर्षे के व्यायम् वे की प्राया व्याव्य प्रायम् प्रायम् वर्णं वर्यं प्रायम् वर्यं प्रायं वरित्रं वर्या वर्याये वर्याये वर्येन्व्यान्यं व्यायम् वरित्रं प्रायम् वर्याः वर्याने वर्यं के प्रायम् वरे व्यायम् वर्यं वे वर्यायास्य द्वायम् प्रायम् प्रायम् के वर्याः प्रायं प्रायमित्यकेके के वर्याः प्रायं वित्यां वित्यान्याः वर्यान्याः वर्यात्याः वरित्वार्यं वर्याः वरित्वाः वर्यायः व्यात्याः प्रायं वरित्वाः वर्याय्याः वर्याय्याः वर्याय्याः वर्यात्याः वर्यात्याः वरित्याम्यायम्यायम्यायम्यायम्यायः वर्याय्याः वर्य

को और बाजार दुवीकरण :

भाषकी कार्य का राजार के 21022018 की 9274 करोड़ रुपये था, यह 31022019 को 45987 है. 19386 करोड कपणे ही गया। दिलांक 31022018 को कपणी का सांगर पुजीकरण 30345 करोड़ रुपये 19376 करोड कपणे ही गया। दिलांक 31022018 को कपणी का सांगर पुजीकरण 30345 करोड़ रुपये

भागात, स्टोक शॅथिनर एव सेन्स : किंग्रेज किंग्रेज से प्रिकेट की का उत्सासकाओं और उसकान के जी किंग्रेकीएम (1965M) किंग्रेज के स्टोज प्रकार के प्रकार के का प्रकार के सामाना की मार्ग की प्रकार कर के 1975 पूज में से प्रेल पर 8.5 पर्वत की केंग्रेज (1974) के कींग्रेम प्रात्म की किंग्रेज के प्रकार के 1975 पूज के प्रेल कर 1984 की से प्रात्म (1974) के कींग्रेम (1974) किंग्रेज के 1975 प्रकार की प्रेल के प्रकार के 1976 की भी मार्ग के कींग्रेज करने के 2015 प्रकार के 1975 प्रेल के प्रकार के 1976 की भी मार्ग के कींग्रेज कर कींग्रेज की दा उप्रधान के देव का करेद के प्रांत के आता को आता कहा जी प्रवार के कींग्र कींग्रेज के भारतियों प्रात्न के प्रकार के आता की आता कहा जी प्रवार के कींग की किंग्रेज के भारतियों का की के जानी का-सरपा सामे के प्रेराज के प्रात्म के क्रा के दिन के स्टोज की का-किंग्रेज किंग्रा प्रात्न किंग्रिक 1987 के दिन की कांग्र के 1987 के उसका की की का-किंग्रेज किंग्रा जानी का कांग्रेज करने के स्वार के आता कहा प्रात्म के स्टोज के स्टोज के स्टोज का-किंग्र किंग्रा जा गए को कीकिंग्र करने के प्रात्म के स्टोज के अलेक के स्टोज के स्टोज के स्टोज का प्रात्म के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार की अलेक की स्वार्ग के स्वार की स्वार के स्वार का स्वार के स्वार

बद-देश्युद्ध केला लागा सुराध देशीका एवसी देश के साथ के आगंध के स्थान के स्थान के साथ के स

पाले का त्यापना करना. पालर कडत एउ तयाद माइल चॉल्यूमन के दिए वेकरकपतिंग वेनेजनंद, ई-कान्स, लेजिनेटन्स प्लेटफॉर्म ले ल्या ने सूरला प्रोटफोनिजी जा महन चम्प्रीम ।

ातेराजी के राज में सुराज कीरणिती का सहय वस्तामा - अस्ताराष्ट्रीय जावामांग्य, व्यावे क्रांस्ट्रे व्युवे स्वीनिश्चिम कोन्युसा प्राप्त कार्य के लिए - कारां हर और सेन्द्राय का प्राप्तांग करने इय्येक्त सीविधित्म कोन्युसा प्राप्त कार्य के कि - कारां हरी जावे से त्राप्ता - गिलासी सेन्द्र प्राप्तिमां के आदिया कारां, तरेंद - गितामा सेन्द्रांग का स्वार्थ के स्वार्थ - गिलासां के स्वार्थ का प्राप्त के स्वार्थ प्राप्तिक कोर्स विधियेन सेना गावि कीरण की प्राप्त के प्राप्त प्राप्त विद्या वीरणवी जावंचारा, स्वाराज के से के स्वे प्रेय करत प्राप्तांन कीरण की प्राप्त संव के प्राप्त कारांग देश्वा जावंचारा, स्वाराज के से के स्वे प्राप्त कारांग प्राप्तांन कीरण के प्राप्त संवार्ध के प्राप्ता कारांग के स्वार्थ के प्राप्त कार्य के स्वार्थ प्राप्तांन कीरण के प्राप्त संवार्ध के प्राप्त कारांग के साथ को कि प्राप्त के स्वारा के स्वाराज स्वाराज कार्य के दुवा सात करने स्वाराज ने हान कोरण के लिए स्वीतिश्च, प्राप्तां के साव स्वी स्वाराज के स्वाराज स्वार्थ के प्राप्त संवर्ध के स्वाराज कोर्ड के स्वारा सात्रा के स्वाराज कार्य के स्वाराज कार्य के दुवा से प्राप्त स्वाराज्य के स्वाराज्य कार्य के स्वारा सात्रा का कार्य के स्वाराज कर्य हो 2 को सात प्राप्त स्वाराज्य के स्वीत्र सात्रा सात्रा काराज कार्य के स्वाराज कार्य स्वाराज सात्रा स्वाराज्य सात्र स्वाराज्य के स्वाराज्य कार्य के स्वाराज्य के स्वाराज्य कार्य के सात्रा काराज्य कार्य स्वाराज सात्रा के सात्रा सात्र के स्वाराज्य के स्वाराज्य कार्य के स्वाराज्य के स्वाराज क्वाराज सात्री के तीत्र सात्रा सात्रा व्यावा साध्या क्वाराज्य कार्य के स्वाराज्य के स्वाराज्य के सात्रा सात्र सीत्र कार्य तीत्र सात्रा सात्र सात्रा क्वाराज्य के स्वाराज्य के सात्रा क्या के सात्रा सात्रा सात्रा सात्रा कारा के सात्रा सात्रा के सात्रा सात्रा क्वारा क्या के सात्रा सात्रा काराज कारित काराज काराज सात्रा सात्रा कारा सात्रा का सात्रा सात्रा सात्रा का सात्रा का के कीर्या सात्रा सात्रा सात्रा कारा सात्रा सात्रा सात्रा सात्रा कारा सात्रा सात्रा सात्रा के सात्रा क्रा के सात्रा का क्वाराज्य के सात्रा का सात्रा सात्रा सात्रा सात्रा सात्रा कारा सात्रा का सात्रा का सात्रा का सात्रा सात्रा सात्रा सात्रा सात्रा सात्रा सात्रा सात्रा सात्रा स

लागत रे थीं है। स्टार र सबुर कामज जगोगां नाइत दिव्युल औरकोर इंग्रा कंपनी दि. (रंजनीवाईलीएन) तथा स्टार सीरोगराजा इशाइस्पर दि. (रेज़रसार्यरण), जीवेल मन्द्री लागज कंपनी भी है जा के बाजन जागराजर जान पर पंचाय कामज ती सारवित है कि स्टोज में हैं। इन सेने की वर्धनीय के सानन दी सोरायल प्रतु का दिव्यु हे (स्त्री साता है कि दिन केमें ने में सारवित चाँ चाँ है जा का बाज तामरायल जागां हुन दे दिवाल से ही प्रति साता है कि दिन केमें ने में सारवित चाँ चाँ हो जा के स्टोज के चाँ है जा सारवाल जागांगां जागां हुन दे दिवाल से हमें कि प्रति साता के कि दिन केमें में में सारवित के चाँ हो जा से सार

Feed

LIP

1

कॉनकॉर CONCOR

K

भारत से 19वन्म एकार्टने पर प्रारंत है कीरेन प्रधा अन्य एपरालगी गंकींग गंकींगियों को भारती में तुर्व सार्व एपरालगे टीकेंग मांकि कि के साल में दर्व साल में साल कि 1
वोनकते से प्रधानी टीकेंस मांकिंग प्रधान के साल में हि के वीर्टने ने केंग मां 10 के साल मांकिंग मांकिंगियों को भारती के साल मांकि 1
वारता हर तरालगा करेरन टीकेंस मांकिंग मांकिंग के साल मांकिंग मांकिंगियों को भारती के साल मांकिंग मांकिंग के साल मांकिंग मांकिंग के साल मांकिंग मांकिंग के साल मांकिंग साल मांकिंग के साल मांकिंग के साल मांकिंग साल मांकिंग साल मांकिंग साल मांकिंग साल मांकिंग के साल मांकिंग से साल मांकिंग से 10 का मांकिंग साल साल मांकिंग साल मांकिंग साल मांकिंग साल मांकिंग साल मांकिंग साल मांकिंग साल साल मांकिंग साल साल मांकिंग साल साल साल मांकिंग साल मांकिंग साल साल मांकिंग साल मांके साल मांके साल सार ने वित्त मांक साल मांके साल मांके साल सार मांकिंग साल के साल सार साल मांके साल साल मांके साल साल सार साल मांकिंग साल सार साल मांक साल सार साल मांक साल साल मांकिंग साल सार साल साल मांके साल सार साल साल साल सार साल साल साल सार साल साल साल साल साल सार साल साल साल सार साल साल साल साल सार साल साल साल साल साल सार साल साल साल सार साल साल साल साल साल सार साल साल साल साल साल साल सार साल साल स

নাগৰ থায়েছে হাওঁৰে : 4 জাৰ্কৰ প্ৰত্যাজনে হো কাৰ্বনি প্ৰথা এই কৰেই ফুলহাৰ জন্মাৰ প্ৰথা হ'বে হে হয়ই কৰি অকলপ্ৰিক হলেই এইৰ ধ্যৱস্থাৱী জন্ম & হৈছে। সিৰ্ভাৱি আৰু প্ৰথা হৈ হে কাৰ্বৰ নামৰা কৰে লৈই অৱহাৰ মহেলোঁকৈ হলেই নামৰ জনা নিৰ্ভাৱ এইৰ পাৰা প্ৰত্যা হৈ হে কৰি পাৰা বাবেল জনবাৰী এ এলগেনে হৈ নামৰ নামৰেৰ জনবাৰিত্বীৰ খা বাবে কাৰ্বা কী পাৰা আম্বাৰজাৰ আইক নাম্বাৰ্তে মা কানামাৰ্ক ন ৰাজনে জনবাৰি কি আ বাবে কাৰ্বা কী পাৰা আম্বাৰজাৰ মাইক নাম্বাৰ্তে মা কানামাৰ্ক ন ৰাজনে জনবাৰি কি আ বাবে কাৰ্বা কী পাৰা আম্বাৰজাৰ মাইক নাম্বাৰ্তে মা কানামাৰ্ক ন ৰাজনে জনবাৰ নাম্বাৰ কাৰ্বা কৰা হয় নামৰ কাৰ্বা কৰা হয় নাম্বাৰ্ত

तिए आपराज आपरायक रहा के रहा की रहा की स्थान निर्वाण की प्राण की पाने प्राण्य की भी कि प्राण्य आपराय की स्थान मिंदन की पाने प्राण्य की पाने प्राण्य के प्राण कि पाने प्राण्य की पाने प्राण्य के प्राण कि पाने प्राण्य की पाने प्राण कि पाने प्राण्य के पाने प्राण कि पाने प्राण्य के प्राण कि पाने प्राण्य के प्राण कि पाने प्राण्य के प्राण कि प्राण कि पाने के प्राण कि पाने के प्राण कि पाने के प्राण कि पाने प्राण कि पाने प्राण कि पाने प्राण कि प्राण कि पाने प्राण के प्राण कि पाने प्राण कि पाने के प्राण कि पाने प्राण के प्राण कि पाने प्राण कि पाने के प्राण कि पाने के प्राण कि पाने प्राण के प्राण कि पाने के प्राण कि पाने प्राण कि पाने के प्राण कि पाने के प्राण कि प्राण के प्राण के प्राण के प्राण के पाने के प्राण के प्राण के पाने के प्राण के प्राण के प्राण के प्राण के पाने के प्राण कि प्राण के प्रा

रिया में दूस माफि जान राहरान ने सार्वाम मोंगी, इंजिटीस, संरचनडों ठोर नीसरना का एक प्राप्त कार्य के स्वारान करने बताते हैं। बत्सा है। बर्क्स में निशोधित प्राप्त में सारों में बारकी करनी को, जिसके में सारक उसरेद कराती है सार बरुव्हा किया गय है। दन करों पहले ने बारकी करनी को, जिसके में सारकान के करने अपने किया है। जब के बार्ट के सार्वाधीयों आप का सुराता में निशव के सारकान देवा करने में सार्वा किया है। जो 2016-10 में रीसीई ने आवारी करनी के दिगलित मासन अनुवारान को उस्प्र देहरा से है।

अने सुराज्या का सालाय का साथ का साथ का सुराज्या न सारांस्य के स्वाय दिया करें सु राज्ये कि से राज्या के सीराज्या के साथ की अपनी के साथित का साज अनुसाल के साइन्छ स्वेतर साथनित सारित्य : स्वेतर सु साथ के साथ के साथ करता साथ के साथ का साथ का साथ का साथ का साथ का साथ सिराज्या के साथ के साथ करता साथ की साथ करता करना साथ का साथ का साथ का साथ का साथ सिराज्या के साथ का साथ के साथ करता के साथ करता के साथ का साथ का साथ का साथ का साथ का साथ का साथ सिराज्या के साथ का साथ के साथ का साथ की साथ करता का साथ का सा साथ का सा

• एरियास्टन जिले में सीएमआर का लिए जाने से सबीता जीनी के सिर्टमपुरत रॉनवर्सन वाल हरेग के सोली जीन सवली, अप्रवास के विद्यापाइन्स जाता उंतराज के अतीलवास का पुरा है। दा जिला में पूराज कर से स्पूर्ण जिसा एवं सालज देखाया का लोसिकेस केंद्रेज है। उनकार केंसों को प्रधा प्रथा ही तालाइएस में देव प्राराष्ट्रण के विद्यापा प्रधान के के साल-स्था प्रथा सरकर इस्ता सार्टित में ताल स्वार्ट्य के विद्या में सालचा हैया कार्य ताल होते के प्रधान प्रधा के ताता किता में तैयां के प्रधान के किया के प्रधान के साल-स्था प्रथा सरकर इस्ता सार्टित में ताल सालच के किया के प्रधान नाम। किसो के लाव होगा ना दिवारा कार्टी का देवराज के की किसो के प्रधान नाम। किसो के सालचा हो ना नियुद्ध प्रथा सार्टीहर सालच हो प्राराण्या के प्रधान किसा कुसा के इंग्लाइलार हुने सालच हो पह किसी के क्रांक के करता के प्रधा के का का तालपानि हिंग में लिया कुसा के इंग्लाइलार हुने सालच की पई किसो उठा से अपिक प्राव तराप्रिय हुए। नीकीय की किसाला हुन स्वार्ट क्रांक के क्रांक के क्रांक हुने करता के हा स्वार्ट कि साल के का क्रांक दिया सान प्रधान के राण्या हान नामजुद्ध करता के क्रांक के क्रांक के क्रांक के क्रांक के की क्रांक का के प्रधान की साला हान नामजुद्ध के क्रांक के क्रांक हुने करता के प्रधान के सालक की साल का ता के साल की का क्रांक के क्रांक के क्रांक का का के क्रांक के क्रांक का का के का के में प्रधान कि साला ताना।

11

प्रवार के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के दिवले कुए विरेण पुराक्षते और कण्पती में सामानित प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के पार्टक प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त किन पार्ट है। इस में प्राप्त के प्राप्त के पार्टक प्राप्त के पार्टक प्राप्त के पार्टक प्राप्त के पार्टक प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त किन प्राप्त है। इस प्राप्त कि प्राप्त के पार्टक प्राप्त के पार्टक प्राप्त में प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के पार्टक प्राप्त के पार्टक के प्राप्त के प्राप्त में प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के पार्टक प्राप्त के प्राप्त - प्राप्त प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त - प्राप्त वितीरिक्त मोटि क्रार के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त - प्राप्त वितीरिक्त मोटि क्राय के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त - प्राप्त वितीरिक्त मोटि क्राय के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त - प्राप्त वितीरिक्त मोटि क्राय के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त - प्राप्त वितीरिक्त मांति के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त - प्राप्त वितीरिक्त मांत के क्षेत्र के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त - प्राप्त वितीरिक्त मांत के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त - प्राप्त वितीरिक्त मांत के के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त - प्राप्त वित्र के प्राप्त - प्राप्त वित्र के प्राप्त के के प्राप्त - प्राप्त कि क्षा

গানিধিতবন। কানেজনা ৰ মনার্হ লানিবিধিতমন কৰিত মনার্হ হৈবেই আঁনাতের জা ভাষার্ড। নার্হের প্রায়ান নারহীকারের জার্টেরি হিরম ভারতের দী হারনীর কটেবর স্কিমা ঘূর্ণ ইর প্রায়হের জাঁজ বি র্ত্তবন্দ (যবিষ্যজ) অর জনার্ড।

अतरावता से वार्थ्य सार्विस्थल स्वेत कर दिया और राज वार्गत।
 गार्वज सी का प्रार्थम्खा सार्विस्थल से विकार से दिया से राज वार्गत।
 गार्वज सी का प्रार्थम्खा सार्विस्थल से प्रार्थम् सार्वज में सार्वज स्वार्थ में से अपेराट को मार्वज से राज वार्थ से राजना से की राज सार्वज सार्वज सार्वज सार्वज सार्वज सार्वज से सार्वज से राजना से की राज सार्वज सार्वज सार्वज सार्वज सार्वज सार्वज सार्वज से राजना से राज सार्वज सार्वज से राज से राजना से की राज सार्वज सार्

• प्रदेशों देशों के अंग्रेस्-गोर पर जेवुली दब के में 80 योगण। अगरा : अंग 4 4 लाइनों दिवानों, दिवोस कथ में रेस्ट्री सिथिर, वोलिय और उद्योग, सि और सभी नियासक प्रारोहर को अपनी देशों के सभी भागते मांगती के उत्यक र रोगों साव्योंन पर में की लिए अपना उप्यक्त सात करना है। में अपने तर्ग से स्वर्टरोडरों के जी उसके नामा लगना पर महिराया के लिए के प्राराज सात करना है। में अपने तर्ग से स्वर्टरोडरों के जी उसके नामा लगना पर महिराया के लिए का प्राराज के प्राराज करने का प्राराज के स्वर्ट की स्वर्टरोड के स्वर्ट मांग के प्राराज के प्राराज के सिराया क्रार करने के लिए प्रायास सात हूं। में कई से सार्टिंग से प्राराज की प्राराज हूं। से सात स्वर्ट करने के लिए प्रायास के लिए प्राराग पर अपना करना के प्राराज हूं। से सात एक स्वर्ट के सात प्राराज करावे हुए में आपने की लिए प्राराग पर अपना करना के ही हुए स्वराज से सार एक स्वर्ट के सात प्राराज करावे हुए में सार्ट की लिए स्वराग पर अपना करना के ही है। स्वराधिक के सात प्राराज हुए करते के दिन स्वराज के सात में के अपने के स्वर को दिवा के सात कि सात के सात के के सात कि सात की सात सात है। अपने सात की सात प्राराज हुए के सित ही सात की सात सात की सात सात है। देविये एक स्वराज की अपना की सिर सात का सात कराव है।

27 अगरत, 2019 नई दिल्ली बी.कल्याण राषा त एवं प्रबंध निदेशक र्ग्ध दिल्ली सेट यह थयनी की ३१वीं यार्षिक सामान्य, बैठक की कार्यबाही का रिकोर्ड नहीं है।